



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 23—अगस्त 29, 2003 (भाद्रपद 01, 1925)
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 23—AUGUST 29, 2003 (BHADRA 01, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(सेना शाखा)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 2003

महानिदेशालय, राष्ट्रपति डेट कोर

सं. 473, दिनांक 16 जुलाई, 2003.—राष्ट्रपति महोदय, स से मु सिविल सेवा नियमावली 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत स से मु सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों को स्थापनापन्न अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में 28 अप्रैल, 2003 से 24 अगस्त, 2003 तक या नियमित पदधारी उपलब्ध होने में से, जो भी पहले हो, उस समय तक नियुक्त करते हैं:—

1. श्री विजेन्द्र सिंह
2. श्रीमती राधिका वेंकटरमन

यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की जा रही है तथा प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना कोई सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।

इस अधिकारी का उपर्युक्त पद पर नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं होगा और न ही अनुभाग अधिकारी के रूप में उनकी सेवा, नियम 7(8) के अंतर्गत कामचलाऊ के लिए गिनी जाएगी।

यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में इस विभाग द्वारा दायर की गई रिट याचिका में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के क्रम में किसी आवश्यक आशोधन तथा अन्य किमी न्यायिक मामलों के, जिसका सहायक ग्रेड की वरिष्ठता पर असर पड़ता हो, अध्यधीन होगी।

सन्तोष दासगुप्ता

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा.)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 474, दिनांक 21 जुलाई, 2003.—राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:—

निम्नलिखित अधिकारियों को एक साल की परखावधि पर अस्थाई वैज्ञानिक ई के रूप में ए.डी. प्रोग्राम, हैदराबाद में उनके नाम के सामने दर्शाए गये विवरण के अनुसार चेतनमान रु. 14300-400-18300 पर

क्रम सं.	नाम	दिनांक
	श्री/श्रीमति/डा.	
1.	उपेन्द्र कुमार सिंह	03.09.2001
2.	अरुणधिति भट्टाचार्य	03.09.2001

श्री एस. आर. चन्द्रामौलि को सी.ए.आई.आर. बेंगलोर में अस्थाई वैज्ञानिक 'डी' के रूप में 24 सितम्बर 2001 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की परखावधि पर रु. 12000-375-16500 के वेतनमान पर।

श्रीमति वी. संगमित्रा को एल.आर.डी.ई., बेंगलोर में अस्थाई वैज्ञानिक 'डी' के रूप में 22 नवम्बर 2001 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की परखावधि पर रु. 12000-375-16500 के वेतनमान पर।

श्री डुवुरी संपागिरी को एल.आर.डी.ई., बेंगलोर में अस्थाई वैज्ञानिक 'डी' के रूप में 23 जनवरी 2002 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की परखावधि पर रु. 12000-375-16500 के वेतनमान पर।

डा. रीना शर्मा को वायुवाहित प्रणाली केंद्र (सी.ए.बी.एस.), बेंगलोर में अस्थाई वैज्ञानिक 'डी' के रूप में 26 जुलाई 2001 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की परखावधि पर रु. 12000-375-16500 के वेतनमान पर।

निम्नलिखित अधिकारियों को एक साल की परखावधि पर अस्थाई वैज्ञानिक 'डी' के रूप में उनके नाम के सामने विवरण के अनुसार वेतनमान रु. 12000-375-16500 पर :-

क्र.सं.	नाम	दिनांक	प्रयोगशाला
	श्री/श्रीमति/डा.		
1.	पी.बी.बी. रामामूर्ति	12.06.2000	आर.सी.आई.
2.	जी. श्रीनिवासाराव	26.06.2000	प्रोग्राम ए.डी.
3.	सी. एस. आदिशेपा	07.08.2001	प्रोग्राम ए.डी.
4.	शशीकला सिन्हा	22.11.2001	आर.सी.आई./प्रोग्राम ए.डी.
5.	ए.बी. सुधाकर रेड्डी	03.12.2001	आर.सी.आई./प्रोग्राम ए.डी.
6.	के.बी.बी. वसन्ता रायडु	21.01.2002	आर.सी.आई.

श्री बी. रंगानाथ को अस्थाई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1 के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर जी.टी.आर.ई. बेंगलोर में 20 मार्च 2003 (पूर्वाह्न) से रु. 10000-325-15200 के वेतनमान पर।

श्री अम्यका प्रसाद घोष को अस्थाई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी.ई.बी.ई.एल. बेंगलोर में 03 अप्रैल 2003 (पूर्वाह्न) से रु. 8000-275-13500 के वेतनमान पर।

जे. के. खडवाल
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-7)

थल सेना विभाग

संख्या 475, दिनांक 17 जुलाई 03—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार भीलमकाविल पोरिन्नु कुट्टी जेकोब (8823890-एक्स अब जेसी-841437-वाई), 29 अप्रैल 2003*।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता-01 अक्टूबर 2002)

हवलदार भरतन मतात कलिलल (8823909-के अब जेसी-841438-वाई), 20 मई 2003*।

हवलदार राम सिंह (1110202-एल अब जेसी-841435-वाई), 22 अप्रैल 2003**।

हवलदार टंक राम (10465243-के अब जेसी-841436-एफ), 24 मार्च 2003**।

**(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता-01 फरवरी 2003)

हवलदार चितेश्वर दुबे (14215663-एच अब जेसी-841443-एक्स), 07 अप्रैल 2003***।

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता-01 मार्च 2003)

हवलदार दामोदरन कलम वालापिपिन (14309655-एच अब जेसी-841460-एक्स), 07 मई 2003****।

हवलदार रघुबीर सिंह (13604692-एच अब जेसी-841461-ए), 01 अप्रैल 2003****।

हवलदार राम सिंह (2859233-एम अब जे.सी.-841463-एल), 01 अप्रैल 2003****।

हवलदार श्याम सिंह (4050552-एच अब जेसी-841464-एन), 01 अप्रैल 2003****।

हवलदार गजेन्द्र सिंह (5744775-एम अब जेसी-841465-डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2003****।

हवलदार रामफल सिंह (6307607-वाई अब जेसी-841466-वाई), 16 अप्रैल 2003****।

**** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता-01 अप्रैल 2003)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार कुलदीप कुमार लिपिक (6901640-एक्स अब जेसी-841450-एफ), 03 मई 2003*****।

हवलदार देश राज लिपिक (13609158-एफ अब जेसी-841459-एच), 29 मई 2003*****।

***** (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता-08 मई 2003)

एस.एन. वर्मा
उप-निर्देशक

नियमित सेना

सेना सेवा कोर (पूर्ति)

नं. 476. दिनांक 16 जुलाई, 03--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

सूबेदार मेजर : लिपिक (सामान्य इयूटी के रैंक में)

सूबेदार घोरपड़े शिवाजी बाघु (जेसी-640116-डब्ल्यू), 02 मार्च 2001*।

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2001 से दी जाएगी।)

सूबेदार रघुबीर सिंह (जेसी-640185-एम), 01 मई 2001।

सूबेदार विश्वकर्मा सचिदानंद योगेश्वर (जेसी-640289-एन), 01 मई 2001।

सूबेदार हरी रमन जे (जेसी-640198-के), 01 जून 2001।

सूबेदार सुनील कुमार सिल (जेसी-640290-एच), 01 जून 2001।

सूबेदार रमेश ब्रोंयट (जेसी-640200-डब्ल्यू), 02 अगस्त 2001*।

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2001 से दी जाएगी।)

सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-640202-डब्ल्यू), 01 अगस्त 2001।

सूबेदार जानकी लाल (जेसी-640207-ए), 01 सितम्बर 2001।

सूबेदार एम वैकटा सुब्बाया (जेसी-640213-एन), 01 सितम्बर 2001।

सूबेदार सुबीर कुमार सरकार (जेसी-640187-एक्स), 15 जून 2001*।

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 24 मई 2001 से दी जाएगी।)

सूबेदार जी रामाकृष्णइया (जेसी-640233-एफ), 05 जनवरी 2002*।

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2001 से दी जाएगी।)

सूबेदार बिजेन्द्र सिंह (जेसी-640217-के), 24 दिसम्बर 2001*।

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2001 से दी जाएगी।)

सूबेदार राजन सैकिया (जेसी-640240-एक्स), 03 जनवरी 2002*।

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2002 से दी जाएगी।)

सूबेदार प्रेम राजन मथाखिल (जेसी-640250-एफ), 01 फरवरी 2002।

सूबेदार गुलाम साबिर खान (जेसी-640252-एम), 02 फरवरी 2002*।

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2002 से दी जाएगी।)

सूबेदार अजित सिंह (जेसी-640189-एच), 01 अप्रैल 2002।

सूबेदार गजराज सिंह यादव (जेसी-640254-एक्स), 26 जुलाई 2002*।

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जून 2002 से दी जाएगी।)

सूबेदार राम प्रसाद (जेसी-640293-डब्ल्यू), 01 जुलाई 2002।

सूबेदार अवध नारायण सिंह (जेसी-640300-एफ), 01 अगस्त 2002।

सूबेदार अलेक्स जी (जेसी-640301-के), 01 सितम्बर 2002।

सूबेदार कविराजन के एन (जेसी-640302-एम), 01 सितम्बर 2002।

सूबेदार जी मुथियल राज (जेसी-640305-ए), 01 अक्टूबर 2002।

सूबेदार जे के नायर (जेसी-640309-डब्ल्यू), 01 फरवरी 2003।

सूबेदार : लिपिक (सामान्य इयूटी के रैंक में)

नायब सूबेदार उत्तम कुमार बरुआ (जेमी-641085-एन), 10 मई 2001।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-641086-एन), 01 मई 2001।

नायब सूबेदार मही पाल सिंह (जेसी-641088-एफ), 01 मई 2001।

नायब सूबेदार विजया कुमार आर (जेसी-641087-वाई), 16 मई 2001*।

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 मई 2001 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार मधुसूधन नायर (जेसी-641122-डब्ल्यू), 01 जनवरी 2002।

नायब सूबेदार के के भट्टचार्यजी (जेसी 641111-के), 18 दिसम्बर 2001*।

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2001 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार नफे सिंह कदिआन (जेसी 641126-एम), 01 फरवरी 2002।

नायब सूबेदार मदन लाल मीना (जेसी-6411248-डब्ल्यू), 01 फरवरी 2002।

नायब सूबेदार उदय कुमार यादव (जेसी-641118-एन), 01 मई 2002*।

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 04 दिसम्बर 2001 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार नारायण चंद्रा मंडल (जेमी-641252-वाई), 27 मई 2002*।

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 मई 2002 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार नरसिंघा गिरि (जेसी-641124-एफ), 01 जनवरी 2002।

नायब सूबेदार अशिष कुमार चंद्रा (जेमी-641251-डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2002*।

- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 27 अगस्त 2002 से दी जाएगी।)
- नायब सूबेदार के एन मिश्रा (जेसी-641271-के), 01 नवम्बर 2002।
- नायब सूबेदार स्टेलिन जी (जेसी-641270-एफ), 01 अक्टूबर 2002।
- नायब सूबेदार शिलेन्द्र कुमार (जेसी-641275-ए), 11 फरवरी 2003*।
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाएगी।)
- नायब सूबेदार शंगारा सिंह (जेसी-641269-एम), 01 अक्टूबर 2002।
- नायब सूबेदार विमलेश कुमार (जेसी-641272-एम), 01 जनवरी 2003।
- नायब सूबेदार महेन्द्र कुमार (जेसी-641096-ए), 01 अगस्त 2001।
- नायब सूबेदार जी अंजनायेलू (जेसी-641098-एल), 01 सितम्बर 2001।
- नायब सूबेदार सुंदर तिवारी (जेसी-641104-एन), 01 अक्टूबर 2001।
- नायब सूबेदार बी एन सिंह (जेसी-641105-डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2001।
- नायब सूबेदार हरबन्स लाल (जेसी-641107-एफ), 01 नवम्बर 2001।
- नायब सूबेदार सी एच एस खिमाजी (जेसी-641112-एम), 01 नवम्बर 2001।
- नायब सूबेदार गंगा सिंह टी (जेसी-641113-पी), 01 नवम्बर 2001।
- नायब सूबेदार मोहिन्द्र सिंह (जेसी-641247-एन), 01 अक्टूबर 2001।
- नायब सूबेदार हरबन्स कुमार सिंह (जेसी-641097-एच), 13 दिसम्बर 2001*।
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2001 से दी जाएगी।)
- नायब सूबेदार पी एन यादव (जेसी-641102-एच), 18 सितम्बर 2001*।
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2001 से दी जाएगी।)
- नायब सूबेदार जसबीर सिंह कंवर (जेसी-641120-एल), 01 दिसम्बर 2001।
- नायब सूबेदार उमा शंकर मिश्रा (जेसी-641108-के), 01 जनवरी 2002*।
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2001 से दी जाएगी।)
- नायब सूबेदार हरीश चन्द्र (जेसी-641114-एक्स), 01 दिसम्बर 2001।
- नायब सूबेदार के के तिवारी (जेसी-641116-एच), 10 जनवरी 2002*।
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2001 से दी जाएगी।)
- नायब सूबेदार शिवा पुत्रा गन्जी (जेसी-641123-वाई), 01 जनवरी 2002।
- नायब सूबेदार कृष्णा गोर्गोई (जेसी-641249-वाई), 01 फरवरी 2002।
- नायब सूबेदार वी सोमन (जेसी-641070-एल), 28 जून 2001*।
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2001 से दी जाएगी।)
- नायब सूबेदार रामअवतार सिंह यादव (जेसी-641089-के), 01 जुलाई 2001।
- नायब सूबेदार आनन्द स्वरूप (जेसी-641090-वाई), 01 जुलाई 2001।
- नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जेसी-641091-एफ), 01 अगस्त 2001।
- नायब सूबेदार असीम कुमार सिन्हा राय (जेसी-641092-के), 01 अगस्त 2001।
- नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-641094-पी), 01 अगस्त 2001।
- नायब सूबेदार कोलेकर सोपान रामा चंदा (जेसी-641095-एक्स), 01 अगस्त 2001।
- नायब सूबेदार एम के जी राजन (जेसी-641071-एन), 01 दिसम्बर 2001*।
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2001 से दी जाएगी।)
- नायब सूबेदार तेजवीर सिंह (जेसी-641100-एक्स), 01 सितम्बर 2001।
- नायब सूबेदार राम नारायण (जेसी-641103-एल), 04 दिसम्बर 2001*।
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2001 से दी जाएगी।)
- नायब सूबेदार एस के पांजा (जेसी-641106-वाई), 01 दिसम्बर 2001*।
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2001 से दी जाएगी।)
- नायब सूबेदार सदानंदा सी यू (जेसी-641109-एम), 01 नवम्बर 2001।
- नायब सूबेदार टी जे सिंह बन्सी सिंह (जेसी-641117-एल), 17 दिसम्बर 2001*।
- *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2001 से दी जाएगी।)
- नायब सूबेदार एस पी सिंह (जेसी-641119-डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2001।
- नायब सूबेदार एस सेन्टीएणो (जेसी-641253-एफ), 01 जून 2002।

नायब सूबेदार चंदन के श्री (जेसी-641255-एम), 01 जुलाई 2002।

नायब सूबेदार महेन्द्र पाल शर्मा (जेसी-641256-पी), 01 अगस्त 2002।

नायब सूबेदार सिकंदर खान (जेसी-641262-एच), 01 सितम्बर 2002।

नायब सूबेदार बच्चू सिंह (जेसी-641512-वाई), 01 सितम्बर 2002।

नायब सूबेदार दुर्गा पांडा मन्ना (जेसी-641263-एल), 01 सितम्बर 2002।

नायब सूबेदार करुणा सिंधु साहू (जेसी-641265-डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2002।

नायब सूबेदार अशोका कुमार रोडत (जेसी-641266-वाई), 01 सितम्बर 2002।

नायब सूबेदार हरीनाम सिंह (जेसी-641268-के), 01 नवम्बर 2002*।

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार मोहम्मद नईम (जेसी-641246-एल), 14 नवम्बर 2002*।

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जून 2002 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार देश राज जामवाल (जेसी-641257-एक्स), 01 अगस्त 2002।

नायब सूबेदार हरीश चंद्र सिंह भंडारी (जेसी-641258-ए), 01 सितम्बर 2002।

नायब सूबेदार रishi राज (जेसी-641259-एच), 01 नवम्बर 2002*।

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार जगत पति डान (जेसी-641267-एफ), 01 सितम्बर 2002।

नायब सूबेदार रघुपति वी डी (जेसी-641260-एक्स), 01 सितम्बर 2002।

नायब सूबेदार त्रिभुवन प्रकाश शर्मा (जेसी-641273-पी), 01 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार विक्रम सिंह यादव (जेसी-641276-एच), 01 मार्च 2003।

नायब सूबेदार योग राज सिंह (जेसी-641277-एल), 01 मार्च 2003।

नायब सूबेदार चन्दू साहू (जेसी-641278-एन), 01 मार्च 2003।

नायब सूबेदार उमेश महतो (जेसी-641280-एल), 01 मार्च 2003।

नायब सूबेदार राम सरूप शर्मा (जेसी-641281-एन), 01 मार्च 2003।

नायब सूबेदार मोहम्मद मुन्ना (जेसी-641284-एफ), 01 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार उदय पाल सिंह (जेसी-641282-डब्ल्यू), 24 अप्रैल 2003*।

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार धर्म पाल सिंह (जेसी-641285-के), 01 मई 2003।

नायब सूबेदार जगवीर सिंह राठौर (जेसी-641287-पी), 01 मई 2003।

नायब सूबेदार कुंवर बहादुर सिंह (जेसी-641288-एक्स), 01 मई 2003।

तोपखाना रेजिमेंट

नायब सूबेदार के पद में

बी एच एम चतर सिंह (सं. 14352830ए अब जेसी-265312एन), 23 नवम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

बी एच एम रन सिंह (सं. 14339491एम अब जेसी-265313डब्ल्यू), 26 दिसम्बर 2002/01 अक्टूबर 2002*।

हवलदार देवी सिंह राठौर (सं. 14489125डब्ल्यू अब जेसी-265314वाई), 23 अक्टूबर 2002/01 अक्टूबर 2002*।

हवलदार हरमीत सिंह (सं. 14338023ए अब जेसी-265315एफ), 29 जनवरी 2003/17 नवम्बर 2002*।

हवलदार रामानन्द प्रसाद सिंह (सं. 14336604वाई अब जेसी-265316के), 16 दिसम्बर 2002/29 नवम्बर 2002*।

हवलदार देवानन्द झा (सं. 14488718एन अब जेसी-265317एम), 22 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002*।

हवलदार पृथ्वी चन्द (सं. 14338187डब्ल्यू अब जेसी-265318पी), 21 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002*।

हवलदार चेस्लाफन नायर मधुसुदनन (सं. 14340558वाई अब जेसी-265319एक्स), 14 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार राजेन्द्र सिंह तन्वर (सं. 14471980ए अब जेसी-265320एम), 01 जनवरी 2003।

बी एच एम कमफूल (सं. 14466722डब्ल्यू अब जेसी-265321पी), 27 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार बिपिन किशोर कुजूर (सं. 15100076एफ अब जेसी-265322एक्स), 27 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार नरिन्दर सिंह (सं. 14335527एच अब जेसी-265323एल), 01 जनवरी 2003।

हवलदार जगदर्शन सिंह (सं. 14344116एल अब जेसी-265324एफ), 14 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

बी एच एम पनीर सैलवम एस (सं. 14461011एम अब जेसी-265325एल), 11 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार अजमेर सिंह (सं. 14361425के अब जेसी-265326एन),
10 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार सुगुन ई (सं. 14361489पी अब जेसी-265327डब्ल्यू),
10 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 14459537ए अब जेसी-265162एच), 09
जुलाई 2002/07 मई 2002*।

हवलदार रवी शंकर मिशर (सं. 14459712के अब जेसी-265163एल),
05 दिसम्बर 2002/01 जून 2002*।

हवलदार त्रिभुवन सिंह (सं. 14336820एम अब जेसी-265164एन),
20 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

हवलदार गुरचरन सिंह (सं. 14497626एच अब जेसी-265165डब्ल्यू),
28 नवम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

हवलदार ज्ञान सिंह (सं. 14335293के अब जेसी-265166वाई), 30
नवम्बर 2002/12 अक्टूबर 2002*।

हवलदार लाल सिंह (सं. 14479399एल अब जेसी-265167एफ),
27 नवम्बर 2002/27 अक्टूबर 2002*।

हवलदार स्वर्ण सिंह (सं. 14339163वाई अब जेसी-265168के), 07
दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

बी एच एम भंवर सिंह (सं. 14452455पी अब जेसी-265169एम),
25 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार कृष्णा बन्ना (सं. 14334519एक्स अब जेसी-265170पी),
30 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार मान सिंह (सं. 14339372डब्ल्यू अब जेसी-265171के),
16 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार सोमपाल (सं. 14459217एल अब जेसी-265172एम), 06
दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार दलीप चन्द (सं. 14461424डब्ल्यू अब जेसी-265173पी),
23 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार चन्द्र पाल (सं. 14461910एन अब जेसी-265174एक्स),
12 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

बी एच एम निहाल सिंह (सं. 14458847वाई अब जेसी-265175ए),
06 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार शामवीर सिंह (सं. 14455568एच अब जेसी-265176एच),
06 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

बी एच एम रनजीत सिंह (सं. 14342112डब्ल्यू अब
जेसी-265177एल), 20 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 14367344ए अब जेसी-265178एन),
05 अक्टूबर 2002/01 अप्रैल 2002*।

बी एच एम लाल चन्द (सं. 14461666वाई अब
जेसी-265179डब्ल्यू), 13 दिसम्बर 2002/01 अगस्त 2002*।

हवलदार सत्यमरायन (सं. 14477564एम अब जेसी-265180एल),
23 दिसम्बर 2002/01 अगस्त 2002*।

हवलदार अम्मा राव (सं. 14371328ए अब जेसी-265181एन), 29
नवम्बर 2002/31 अगस्त 2002*।

हवलदार अचनी कुमार मिश्रा (सं. 14482808वाई अब
जेसी-265182डब्ल्यू), 10 दिसम्बर 2002/01 अगस्त 2002*।

हवलदार योगेन्द्र कुमार (सं. 15105872एन अब जेसी-265183वाई),
12 नवम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

बी एच एम प्रदीप कुमार (सं. 14366670डब्ल्यू अब
जेसी-265184एफ), 20 नवम्बर 2002/28 सितम्बर 2002*।

आर एच एम अजीत सिंह (सं. 14473471ए अब जेसी 265185के)
30 दिसम्बर 2002/01 अक्टूबर 2002*।

हवलदार साबन सिंह (सं. 14346210एन अब जेसी-265186एम),
28 अक्टूबर 2002/15 अक्टूबर 2002*।

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 14360194एम अब जेसी-265187पी),
09 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

बी एच एम विजय किशोर (सं. 14375221एच अब
जेसी-265188एक्स), 09 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार अरविदाक्षन (सं. 14477294एच अब जेसी-265189ए),
10 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार जगमल सिंह (सं. 14459033एम अब जेसी-265190पी),
16 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

बी एच एम बिशन सिंह (सं. 14344572डब्ल्यू अब
जेसी-265191एक्स), 20 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार शीन्दे बानसाहेब अन्ना (सं. 14357869डब्ल्यू अब
जेसी-265192ए), 05 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार राम सिंह (सं. 14476676ए अब जेसी-265193एच), 01
जनवरी 2003/17 नवम्बर 2002*।

हवलदार भवनेश्वर सिंह (सं. 14338030डब्ल्यू अब
जेसी-265194एल), 31 अक्टूबर 2002/20 अगस्त 2002*।

बी एच एम शमशेर सिंह (सं. 1435873के अब जेसी-265195एन),
05 दिसम्बर 2002/29 अगस्त 2002*।

हवलदार मोहन सिंह (सं. 14457365एक्स अब जेसी-265196डब्ल्यू),
11 नवम्बर 2002/31 अगस्त 2002*।

हवलदार पालदेन धीसींग (सं. 14462125के अब जेसी-265197वाई),
02 दिसम्बर 2002/31 अगस्त 2002*।

आर एच एम देवी सिंह (सं. 14337771एफ अब जेसी-265198एफ),
01 सितम्बर 2002

हवलदार देव नन्दन तिवारी (सं. 14469221एफ अब
जेसी-265199के), 17 दिसम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

हवलदार मनोहरन आर (सं. 14365553वाई अब जेसी-265200एन), 05 दिसम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

बी एच एम अजीत सिंह (सं. 14459215ए अब जेसी-265201 डब्ल्यू), 05 दिसम्बर 2002/10 सितम्बर 2002*।

हवलदार वी वराप्रसाद बाबू (सं. 14343034डब्ल्यू अब जेसी-265202वाई), 24 नवम्बर 2002/01 अक्तूबर 2002*।

हवलदार बहादुर सिंह (सं. 14372585के अब जेसी-265203एफ), 26 नवम्बर 2002/02 अक्तूबर 2002*।

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 14459045एफ अब जेसी-265204के), 06 जनवरी 2003/26 अक्तूबर 2002*।

बी एच एम बलवीन्दर सिंह (सं. 14467163के अब जेसी-265205एम), 24 दिसम्बर 2002/30 अक्तूबर 2002*।

हवलदार तुन बहादुर छेत्री (सं. 14469177एच अब जेसी-265206पी), 11 जनवरी 2003/31 अक्तूबर 2002*।

बी एच एम हरधन प्रमानीक (सं. 14464694डब्ल्यू अब जेसी-265207एक्स), 20 दिसम्बर 2002/31 अक्तूबर 2002*।

हवलदार ससी सी (सं. 14460423एफ अब जेसी-265208ए), 07 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार नारायणन पी (सं. 14466720एल अब जेसी-265209एच), 26 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार कमलेश कुमार (सं. 15103085एन अब जेसी-265210एक्स), 31 अगस्त 2002/01 अगस्त 2002*।

आर एच एम देवी प्रसाद तिवारी (सं. 14461198के अब जेसी-265211ए), 17 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

आर एच एम दीलावर सिंह (सं. 14385566एक्स अब जेसी-265212एच), 15 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

आर एच एम राम निवास (सं. 15103177ए अब जेसी-265213एल), 28 अक्तूबर 2002/01 अक्तूबर 2002*।

आर एच एम नरेश कुमार (सं. 14487434एक्स अब जेसी-265214एन), 09 अक्तूबर 2002/01 अक्तूबर 2002*।

आर एच एम रघुनाथ राऊत (सं. 15104307के अब जेसी-265215डब्ल्यू), 17 अक्तूबर 2002/01 अक्तूबर 2002*।

आर एच एम लखवीर सिंह (सं. 14486495एच अब जेसी-265216वाई), 09 नवम्बर 2002/01 अक्तूबर 2002*।

आर एच एम सुरेश कुमार (सं. 14396657एफ अब जेसी-265217एफ), 01 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

आर एच एम पोट्टा श्रीनिवास राव (सं. 14397865एच अब जेसी-265218के), 09 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

आर एच एम श्रीराम कुमार (सं. 15110460डब्ल्यू अब जेसी-265219एम), 01 नवम्बर 2002*।

आर एच एम राजपाल सिंह यादव (सं. 15111089वाई अब जेसी-265220एफ), 02 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

आर एच एम हन्स राज (सं. 14377913डब्ल्यू अब जेसी-265221के), 05 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

आर एच एम धनश्याम सिंह (सं. 15103991एल अब जेसी-265222एम), 18 दिसम्बर 2002/01 दिसम्बर 2002*।

आर एच एम ब्रिज लाल यादव (सं. 14487771एम अब जेसी-265223पी), 18 दिसम्बर 2002/01 दिसम्बर 2002*।

हवलदार योगेन्द्रा सिंह भदोरिया (सं. 14464179के अब जेसी-265408डब्ल्यू), 20 जनवरी 2003/01 अक्तूबर 2002*।

आर एच एम दलजीत सिंह (सं. 14339749पी अब जेसी-266509वाई), 02 फरवरी 2003/28 अक्तूबर 2002*।

आर एच एम वजीर सिंह (सं. 14486679एफ अब जेसी-265410एन), 18 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार सी सुब्रहमनी (सं. 14348222एफ अब जेसी-265411डब्ल्यू), 29 जनवरी 2003/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार रामाचन्द्रन टी (सं. 14345847एल अब जेसी-265412वाई), 03 फरवरी 2003/01 जनवरी 2002*।

हवलदार रामानन्द (सं. 14348638वाई अब जेसी-265413एफ), 27 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002*।

हवलदार अनिल कुमार पन्नेर (सं. 14339152एम अब जेसी-265414के), 22 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002*।

बी एच एम रजोष सिंह (सं. 14466613के अब जेसी-265415एम), 06 फरवरी 2003/05 दिसम्बर 2002*।

बी एच एम एस मनोहरन (सं. 14462500के अब जेसी-265416पी), 20 जनवरी 2003/30 दिसम्बर 2002*।

हवलदार परीतोश बिश्वास (सं. 14464795के अब जेसी-265417एक्स), 17 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

बी एच एम सोमासेखरन नायर के एम (सं. 14336508के अब जेसी-265418ए), 01 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

बी एच एम ससीधरन सी (सं. 14364573ए अब जेसी-265419एच), 25 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार अकुल कृष्णनम (सं. 14349904वाई अब जेसी-265420एक्स), 01 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 14467942एम अब जेसी-265421ए), 10 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार थॉमस के जी (सं. 14352455एच अब जेसी-265422एच), 01 फरवरी 2003*।

हवलदार भगवान सिंह (सं. 15105021एफ अब जेसी-265423एल), 02 फरवरी 2003/01 फरवरी 2003*।

आर एच एम गुरदेव शर्मा (सं. 14476208एफ अब जेसी-265424एन),
23 दिसम्बर 2002/22 नवम्बर 2002*।

हवलदार रवीन्द्र नाथ सिंघा (सं. 14466916वाई अब
जेसी-265425डब्ल्यू), 01 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002*।

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 14472297एक्स अब जेसी-265426वाई),
27 दिसम्बर 2002/01 दिसम्बर 2002*।

आर एच एम ब्रह्मानन्द यादव (सं. 14390988एम अब
जेसी-265427एफ), 03 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

आर एच एम व्ही सतीश (सं. 14492543एन अब जेसी-265428के),
08 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

आर एच एम सुखवीर सिंह (सं. 14399559एम अब
जेसी-265429एम), 11 फरवरी 2003/01 फरवरी 2003*।

आर एच एम ओम किशन (सं. 14487462के अब जेसी-265430एफ),
22 फरवरी 2003/01 फरवरी 2003*।

हवलदार होशियार सिंह (सं. 14348766डब्ल्यू अब
जेसी-265296एफ), 24 नवम्बर 2002/30 नवम्बर 2001*।

हवलदार रघुपाल सिंह (सं. 14346933एच अब जेसी-265297के),
20 दिसम्बर 2002/14 अगस्त 2002*।

बी एच एम राम किशन (सं. 14337767वाई अब जेसी-265298एम),
09 जनवरी 2003/31 अगस्त 2002*।

बी एच एम गोलाप चन्द्र नाथ (सं. 14461523वाई अब
जेसी-265299पी), 20 दिसम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

हवलदार चुनी लाल शर्मा (सं. 14343155वाई अब जेसी-265300वाई),
08 फरवरी 2003/01 अक्टूबर 2002*।

बी एच एम सुरजीत सिंह (सं. 14466083ए अब जेसी-265301एफ),
20 अक्टूबर 2002/01 अक्टूबर 2002*।

हवलदार शीशपाल सिंह (सं. 14459426एच अब जेसी-265302के),
23 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार बलदेव सिंह (सं. 14335529एन अब जेसी-265303एम),
01 फरवरी 2003/06 नवम्बर 2002*।

हवलदार जर्नल सिंह (सं. 14352584ए अब जेसी-265304पी), 22
जनवरी 2003/14 नवम्बर 2002*।

हवलदार आजादुद्दीन (सं. 14342873डब्ल्यू अब जेसी-265305एक्स),
09 जनवरी 2003/20 नवम्बर 2002*।

हवलदार त्रीलोचन सिंह (सं. 14371909एक्स अब जेसी-265306ए),
15 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002*।

हवलदार महावीर सिंह शेखावत (सं. 14342869वाई अब
जेसी-265307एच), 15 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002*।

हवलदार रावल चन्द (सं. 14455170एन अब जेसी-265308एल),
22 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

बी एच एम गंगा राम (सं. 14339180वाई अब जेसी-265309एन),
25 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार कैलाश चन्द शर्मा (सं. 14359673एफ अब
जेसी-265310एच), 09 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार पितांबर साहू (सं. 14340849एम अब जेसी-265311एल),
13 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार प्रेम चन्द (सं. 14466159पी अब जेसी-265328वाई), 06
जनवरी 2003/01 अगस्त 2002*।

हवलदार राम सिंह (सं. 14340507वाई अब जेसी-265329एफ), 18
जनवरी 2003/01 अगस्त 2002*।

बी एच एम दयानन्द शिवाजी राव चव्हाण (सं. 14474142डब्ल्यू अब
जेसी 265330डब्ल्यू), 17 जनवरी 2003/20 अक्टूबर 2002।

हवलदार स्वर्ण सिंह (सं. 14343019एक्स अब जेसी-265331वाई),
22 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

आर एच एम जसपाल सिंह (सं. 14469651एल अब
जेसी-265332एफ), 11 जनवरी 2003/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 14382485एम अब जेसी-265333के), 01
दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार आई चिन्नापन (सं. 14480526एफ अब जेसी-265334एम),
13 जनवरी 2003/29 नवम्बर 2002*।

हवलदार सुन्दर पाल (सं. 14489261के अब जेसी-265335पी),
01 फरवरी 2003/30 नवम्बर 2002*।

आर एच एम रमेश चन्द (सं. 14460038एक्स अब
जेसी-265336एक्स), 27 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002*।

बी एच एम लक्ष्मीधर (सं. 14464603एफ अब जेसी-265337ए),
17 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002*।

हवलदार भगवान सिंह राना (सं. 14335516डब्ल्यू अब
जेसी-265338एन), 22 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002*।

हवलदार मधुसूदन पात्रा (सं. 14457526पी अब जेसी-265339एल),
08 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार मुन्ना पाल (सं. 14487101एल अब जेसी-265340एन), 20
जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार सुन्दर लाल यादवा (सं. 14344238पी अब
जेसी-265341डब्ल्यू), 27 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार शिन्डे विलास राधो (सं. 14345609वाई अब
जेसी-265342वाई), 01 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार राम प्रकाश (सं. 14468713एन अब जेसी-265343एफ),
01 फरवरी 2003।

हवलदार गधेश्याम (सं. 14457830वाई अब जेसी-265439एन), 13
जनवरी 2003/31 अक्टूबर 2002*।

हवलदार जगदीश प्रसाद (सं. 14335720पी अब जेसी-265440एल),
08 फरवरी 2003/01 नवम्बर 2002 *।

हवलदार जया प्रकाश (सं. 14338126वाई अब जेसी-265441एन),
08 फरवरी 2003/01 नवम्बर 2002 *।

आर एच एम चंगी राम (सं. 14460318एल अब जेसी-
265442डब्ल्यू), 21 फरवरी 2003/01 दिसम्बर 2002 *।

हवलदार कृष्ण सिंह (सं. 14375733पी अब जेसी-265443वाई),
08 फरवरी 2003/01 दिसम्बर 2002 *।

हवलदार जोगमन्दरा सिंह (सं. 14482424के अब जेसी-265444एफ),
05 फरवरी 2003/01 दिसम्बर 2002 *।

हवलदार हरि नारायण मिश्रा (सं. 14359014एम अब
जेसी-265445के), 21 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003 *।

बी एच एम कन्वर सिंह (सं. 14460106ए अब जेसी-265446एम),
14 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003 *।

हवलदार रसपाल सिंह कथाल (सं. 14486653एम अब
जेसी-265447पी), 20 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003 *।

हवलदार भूषण लाल (सं. 14457562ए अब जेसी-265448एक्स),
07 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003 *।

हवलदार जानकार सिंह (सं. 14390626एल अब जेसी-265449ए),
25 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003 *।

हवलदार तारसेम सिंह (सं. 14390018के अब जेसी-265450पी), 03
मार्च 2003/01 जनवरी 2003 *।

हवलदार पुष्प सिंह राठोड (सं. 14334977एन अब जेसी-265451एक्स),
29 जनवरी 2003/05 जनवरी 2003 *।

हवलदार अमर नाथ (सं. 14456444ए अब जेसी-265452ए), 29
जनवरी 2003/11 जनवरी 2003 *।

बी एच एम रघुराज शर्मा (सं. 14463485एम अब जेसी-265453एच),
26 फरवरी 2003/01 फरवरी 2003 *।

बी एच एम राम अवतार (सं. 14467303एल अब जेसी-265454एल),
01 मार्च 2003।

बी एच एम देव नन्दन सिंह (सं. 14470057 डब्ल्यू अब
जेसी-265455एन), 28 नवम्बर 2002/01 अप्रैल 2002 *।

हवलदार रमेश चन्द नागवाल (सं. 14338759एम अब
जेसी-265456डब्ल्यू), 17 फरवरी 2003/01 अक्टूबर 2002 *।

आर एच एम तारा सिंह भारतीया (सं. 14373188एक्स अब
जेसी-265457वाई), 30 जनवरी 2003/01 अक्टूबर 2002 *।

हवलदार बादशाह यादव (सं. 1434371एम अब जेसी-265458एफ),
22 जनवरी 2003/28 अक्टूबर 2002 *।

हवलदार खण्डेबाई कडुबा बाबूराव (सं. 14362611एम अब
जेसी-265459के), 01 जनवरी 2003/01 नवम्बर 2002 *।

हवलदार रविन्द्र सिंह (सं. 14497873डब्ल्यू अब जेसी-265460वाई),
15 मार्च 2003/30 नवम्बर 2002 *।

हवलदार सुरत सिंह (सं. 14457159एन अब जेसी-265461एफ), 04
फरवरी 2003/27 दिसम्बर 2002 *।

हवलदार बजीर सिंह (सं. 14346794के अब जेसी-265462के), 27
जनवरी 2003/01 जनवरी 2003 *।

आर एच एम शेर सिंह (सं. 14459678पी अब जेसी-265463एच),
25 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003 *।

हवलदार बसना गौडा पाटील (सं. 144622005एफ अब
जेसी-265464पी), 01 मार्च 2003/01 जनवरी 2003 *।

हवलदार उदय कुमार टी (सं. 14465661एक्स अब
जेसी-265465एक्स), 21 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003 *।

हवलदार नारायण सिंह (सं. 14340568डब्ल्यू अब जेसी-265466पी),
04 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003 *।

हवलदार प्रेम प्रकाश (सं. 14361722एक्स अब जेसी-265467एच),
01 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003 *।

हवलदार विशालन (सं. 14470283एन अब जेसी-265468एल), 21
फरवरी 2003/01 जनवरी 2003 *।

हवलदार विठ्ठल लोंगातड (सं. 14373913वाई अब
जेसी-265469एन), 12 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003 *।

हवलदार सतनाम सिंह (सं. 15107206एफ अब जेसी-265470एच),
10 मार्च 2003/01 जनवरी 2003 *।

हवलदार जीतेन्द्र कुमार (सं. 143344977एफ अब
जेसी-265255एक्स), 10 दिसम्बर 2002/01 अगस्त 2002 *।

हवलदार के पान्डुरंगन (सं. 14355333एफ अब जेसी-265256पी),
09 दिसम्बर 2002/01 सितम्बर 2002 *।

बी एच एम सन्त विजय यादव (सं. 14485853एक्स अब
जेसी-265257एच), 27 दिसम्बर 2002/01 अक्टूबर 2002 *।

बी एच एम वेद प्रकाश (सं. 14343232एफ अब जेसी-265258एल),
01 जनवरी 2003/01 अक्टूबर 2002 *।

हवलदार हरी प्रसाद (सं. 14355901डब्ल्यू अब जेसी-255259एच),
08 जनवरी 2003/02 अक्टूबर 2002 *।

हवलदार राजनाथ सिंह (सं. 14340027पी अब जेसी-265260एच),
26 नवम्बर 2002/02 अक्टूबर 2002 *।

हवलदार श्रीराम (सं. 14475091के अब जेसी-265261एल), 13
जनवरी 2003/02 अक्टूबर 2002 *।

हवलदार दया राम यादव (सं. 14459278एच अब जेसी-265262एन),
30 नवम्बर 2002/16 अक्टूबर 2002 *।

हवलदार सुखजीन्दर (सं. 14358579एल अब जेसी-265263डब्ल्यू),
28 दिसम्बर 2002/18 अक्टूबर 2002 *।

हवलदार बांके लाल (सं. 14338656एन अब जेसी-265264वाई),
21 दिसम्बर 2002/26 अक्तूबर 2002*।

हवलदार रवी कुमार (सं. 14457687एक्स अब जेसी-265265एफ),
10 जनवरी 2003/29 अक्तूबर 2002*।

आर एच एम रवतीश चन्द्र प्रधान (सं. 14346119एक्स अब
जेसी-265266के), 12 दिसम्बर 2002/16 नवम्बर 2002*।

वी एच एम राज कुमार (सं. 14455869एम अब जेसी-265267एम),
04 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002*।

बी एच एम कदम महादेव (सं. 14455803डब्ल्यू अब
जेसी-265268पी), 24 दिसम्बर 2002/10 दिसम्बर 2002*।

हवलदार राम नाथ (सं. 14337337पी अब जेसी-265269एक्स), 02
जनवरी 2003/12 दिसम्बर 2002*।

हवलदार सुखमिन्दर सिंह (सं. 14458870एम अब जेसी-265270एम),
01 जनवरी 2003।

हवलदार केहर सिंह (सं. 15102160ए अब जेसी-265271पी), 16
दिसम्बर 2002/01 अगस्त 2002*।

हवलदार अजीत सिंह (सं. 14464553एफ अब जेसी-265272एक्स),
17 दिसम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

हवलदार हरभजन सिंह (सं. 14370734एन अब जेसी-265273ए),
25 दिसम्बर 2002/11 सितम्बर 2002*।

हवलदार सतपाल वर्मा (सं. 14340609पी अब जेसी-265274एच),
09 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार सतबीर सिंह (सं. 14466043वाई अब जेसी-265275एल),
31 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार गुरचरन सिंह (सं. 14475888वाई अब जेसी-265276एन),
23 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार चौद राम (सं. 14357259के अब जेसी-265277डब्ल्यू), 01
नवम्बर 2002।

हवलदार राजप्पन सी आर (सं. 14364720एक्स अब
जेसी-265278वाई), 20 जनवरी 2003/01 नवम्बर 2002*।

वी एच एम ध्यान पाल सिंह (सं. 14460195के अब
जेसी-265279एफ), 15 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002*।

वी एच एम जगदीश सिंह (सं. 14453027एच अब
जेसी-265280डब्ल्यू), 06 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002*।

हवलदार जसवन्त सिंह चंपावत (सं. 15104136एच अब
जेसी-265281वाई), 01 फरवरी 2003/01 दिसम्बर 2002*।

हवलदार राज कुमार (सं. 14338173डब्ल्यू अब जेसी-265282एफ),
06 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार अमरजीत सिंह (सं. 14344006एल अब जेसी-265283के),
27 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

आर एच एम संतोष कुमार चतुर्वेदी (सं. 14477320वाई अब
जेसी-265284एम), 01 जनवरी 2003।

हवलदार कमल सिंह (सं. 14455995वाई अब जेसी-265285पी), 11
जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार उमेद सिंह सिसोदिया (सं. 14481123वाई अब
जेसी-265286एक्स), 01 फरवरी 2003।

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी/एसकेटी) के पद में

हवलदार (क्लर्क) बलदेव चन्द शर्मा (सं. 14337318के अब जेसी-
265384एक्स), 25 जनवरी 2003*।

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
25 नवम्बर 2001 से दी जायेगी)।

हवलदार (क्लर्क) रनजीत सिंह (सं. 14339121एम अब जेसी-
265388एन), 20 दिसम्बर 2002*।

हवलदार (क्लर्क) सुरेश कुमार वर्मा (सं. 14362154के अब जेसी-
265379एम), 03 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) अमरीक सिंह (सं. 14476847एफ अब जेसी-
265385ए), 04 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) अरविन्द कुमार सिंह (सं. 14340135वाई अब
जेसी-265375डब्ल्यू), 01 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) गिरधर दिवेदी (सं. 14475703एम अब जेसी-
265386एच), 28 दिसम्बर 2002*।

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
1 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)।

हवलदार (क्लर्क) जय बीर (सं. 14363124वाई अब
जेसी-265381के), 14 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) राम चन्द्रन नायर वी.पी. (सं. 14478497वाई अब
जेसी-265383पी), 06 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) श्री कुमार एस. (सं. 14478498एफ अब जेसी-
265376वाई), 01 जनवरी 2003*।

हवलदार (एस के टी) बाबू लाल यादव (सं. 14463454एम अब जेसी-
265382एम), 06 जनवरी 2003*।

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2003 से दी जायेगी)।

हवलदार (एस के टी) श्री कृष्ण (सं. 14337607वाई अब जेसी-
265390एल), 25 जनवरी 2003*।

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2003 से दी जायेगी)।

हवलदार (क्लर्क) चंचल सिंह नागरकोटी (सं. 14365994पी अब
जेसी-265377एफ), 03 फरवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) जीत बहादुर तिवारी (सं. 14480241पी अब जेसी-265380एफ), 01 फरवरी 2003।

हवलदार (क्लर्क) लाल नवल किशोर (सं. 14480263एन अब जेसी-265378के), 01 फरवरी 2003।

हवलदार (क्लर्क) बाबू एस. (सं. 14480380वाई अब जेसी-265387एल), 01 फरवरी 2003।

हवलदार (क्लर्क) रमेश कुमार तिवारी (सं. 14480472एल अब जेसी-265391एन), 04 फरवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) प्रभाकर सतपत्नी (सं. 14480784एफ अब जेसी-265389डब्ल्यू), 01 फरवरी 2003*।

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार बलागुर सिंह (14466202एल अब जेसी-265344डब्ल्यू), 29 जनवरी 2003/01 अक्टूबर 2002*।

हवलदार राज बौर (14339974के अब जेसी-265345वाई), 10 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार राम बहादुर (14356091डब्ल्यू अब जेसी-265346एफ), 10 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार राम सिंह (14457499डब्ल्यू अब जेसी-265347के), 26 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार बलजीत सिंह (14463926एक्स अब जेसी-265348एम), 17 जनवरी 2003/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार बेताले संभाजी रामचन्द्र (14464739एल अब जेसी-265349पी), 20 जनवरी 2003/09 नवम्बर 2002*।

हवलदार सुरेश सिंह (14364246पी अब जेसी-265350के), 30 दिसम्बर 2002/20 नवम्बर 2002*।

आर एच एम परमजीत सिंह (14470630एफ अब जेसी-265351एम), 31 दिसम्बर 2002/01 दिसम्बर 2002*।

बी एच एम सदानन्द गणपत चव्हाण (14468528ए अब जेसी-265352पी), 18 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002*।

आर एच एम संपत कुमार त्रिपाठी (14346885एन अब जेसी-265353एक्स), 01 जनवरी 2003।

हवलदार बियंत सिंह (14338947एन अब जेसी-265354ए), 17 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार बजरंग सिंह (14458766वाई अब जेसी-265355एच), 02 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार छाजु राम (14466196एच अब जेसी-265356एल), 23 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार अंजनी कुमार शर्मा (14462965के अब जेसी-265357एन), 03 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार परमजीत सिंह (14347453एल अब जेसी-265358डब्ल्यू), 01 फरवरी 2003।

हवलदार एम डी फजल अन्सारी (15135000ए अब जेसी-265359वाई), 11 जनवरी 2003/21 मई 2002*।

बी एच एम चमकार सिंह (14472079एम अब जेसी-265360एन), 19 जनवरी 2003/01 अगस्त 2002*।

हवलदार राजीन्द्र सिंह (14463022एक्स अब जेसी-265361डब्ल्यू), 23 नवम्बर 2002/31 अगस्त 2002*।

हवलदार विरेन्द्र सिंह (14467028डब्ल्यू अब जेसी-265362वाई), 16 जनवरी 2003/01 अक्टूबर 2002*।

हवलदार ब्रिजलाल मीना (14463211एफ अब जेसी-265363एफ), 08 फरवरी 2003/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार उदे राम (14457298एक्स अब जेसी-265364के), 07 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार हन्स राम (14334917वाई अब जेसी-265365एम), 07 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार बीसन सिंह बगयाल (14340320एम अब जेसी-265366पी), 08 फरवरी 2003/01 नवम्बर 2002*।

आर एच एम राम लुभया (14457955डब्ल्यू अब जेसी-265367एक्स), 26 जनवरी 2003/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार रमेश चन्द चौहान (14346934एच अब जेसी-265368ए), 11 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

बी एच एम महेन्द्र सिंह (14477820डब्ल्यू अब जेसी-265369एच), 26 दिसम्बर 2002/02 नवम्बर 2002*।

बी एच एम सावन्त सिंह (14463133पी अब जेसी-265370एक्स), 25 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

बी एच एम दलीप सिंह (14454545पी अब जेसी-265371ए), 25 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार विनोद कुमार सुगल (14461796एफ अब जेसी-265372एच), 10 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार आर बेस (14347506वाई अब जेसी-265373एल), 07 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार एन मुनीरथनम (14499645के अब जेसी-265374एन), 11 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

(*ज्येष्ठता प्राप्त)

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी/एस के टी) के पद में

हवलदार (क्लर्क) नील कमल विश्वाम (सं. 14360320एन अब जेसी-265224एक्स), 15 नवम्बर 2002*।

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अक्टूबर 2002 से दी जाएगी)

हवलदार (क्लर्क) कैलाश चन्द्र (सं. 14474997वाई अब जेसी-265225ए), 30 दिसम्बर 2002*।

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जाएगी)

हवलदार (क्लर्क) राम नरेश (सं. 14342688एन अब जेसी-265141एम), 27 दिसम्बर 2002*।

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 नवम्बर 2002 से दी जाएगी)।

हवलदार (क्लर्क) राजेन्द्रा कुरूप टी सी (सं. 14340468एल अब जेसी-265226एच), 02 जनवरी 2003*।

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 नवम्बर 2002 से दी जाएगी)।

हवलदार (क्लर्क) टी सेखर (सं. 14475701एफ अब जेसी-265227एल), 24 दिसम्बर 2002*।

हवलदार (क्लर्क) जाकमपुडी एस आर के मुरली मोहन (सं. 14339875एफ अब जेसी-265289एल), 30 दिसम्बर 2002*।

हवलदार (क्लर्क) सचिदानन्द सिंह (सं. 14340133एन अब जेसी-265228एन), 30 दिसम्बर 2002*।

हवलदार (क्लर्क) बशन्त कुमार दुबे (सं. 14343659एल अब जेसी-265229डब्ल्यू), 6 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) सुरेश चन्द्र मिश्रा (सं. 14360352डब्ल्यू अब जेसी-265230एल), 01 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) करुणाकरन ए के (सं. 14360357पी अब जेसी-265231एन), 30 दिसम्बर 2002*।

हवलदार (क्लर्क) लाल सिंह (सं. 14361877एम अब जेसी-265232डब्ल्यू), 21 दिसम्बर 2002*।

हवलदार (क्लर्क) अवध नारायण त्रिपाठी (सं. 14461739ए अब जेसी-265233वाई), 04 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) श्रीनिवासन वी (सं. 14473943एल अब जेसी-265234एफ), 30 दिसम्बर 2002*।

हवलदार (क्लर्क) राकेश कुमार मिश्रा (सं. 14362079एल अब जेसी-265235के), 28 दिसम्बर 2002*।

हवलदार (क्लर्क) बद्री नाथ तिवारी (सं. 14475669एक्स अब जेसी-265236एम), 09 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) आर गजेन्द्रन (सं. 14356491एच अब जेसी-265237पी), 26 दिसम्बर 2002*।

हवलदार (क्लर्क) प्रभाकर गुप्ता (सं. 14475667एम अब जेसी-265238एक्स), 27 दिसम्बर 2002*।

हवलदार (क्लर्क) हरी बाबू (सं. 14362167एफ अब जेसी-265239ए), 31 दिसम्बर 2002*।

हवलदार (क्लर्क) ग्यानेन्द्रा कुमार दास (सं. 14476856एम अब जेसी-265295वाई), 03 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) विरेन्द्र कुमार शुक्ला (सं. 14343044ए अब जेसी-265240पी), 01 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) चन्द्र भूषण वर्मा (सं. 14341392एच अब जेसी-265288एच), 10 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) सुरेन्द्र सिंह (सं. 14342472एम अब जेसी-265241एक्स), 05 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) मिलाप सिंह (सं. 14466167एन अब जेसी-265287ए), 03 दिसम्बर 2002*।

हवलदार (क्लर्क) मोहिन्द्रे सिंह (सं. 14339714वाई अब जेसी-265242ए), 06 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) जिवन चन्द्र पन्त (सं. 14468229एफ अब जेसी-265243एच), 20 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) उपती काउपादनम (सं. 14356637एल अब जेसी-265292एल), 08 जनवरी 2003*।

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जाएगी)।

हवलदार (क्लर्क) शोक महबूब बशा (सं. 14333974एन अब जेसी-265244एल), 06 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) दिलबाग सिंह (सं. 14362186एम अब जेसी-265291एच), 08 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) अशोक कुमार (सं. 14476871एक्स अब जेसी-265245एन), 10 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) पहलाद सिंह (सं. 14362189ए अब जेसी-265246डब्ल्यू), 09 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) अमर नाथ (सं. 14362190पी अब जेसी-265247वाई), 07 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) मुकुन्दा कुमार नायक (सं. 14362198एफ अब जेसी-265248ए), 07 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) सुख राम (सं. 14363129एक्स अब जेसी-265249के), 08 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) रनवीर सिंह (सं. 14363989एल अब जेसी-265250वाई), 08 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) खीम सिंह रावत (सं. 14478690एल अब जेसी-265251एफ), 06 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) सुभाष चन्द्र (सं. 14478694एफ अब जेसी-265252के), 06 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) राजा राम यादव (सं. 14344505एल अब जेसी-265253एम), 06 जनवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) ग्यानचन्द्रा दास (सं. 14344987एल अब जेसी-265290ए), 24 जनवरी 2003*।

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जाएगी)

हवलदार (क्लर्क) धरम वीर सिंह (सं. 14366758ए अब जेसी-265294डब्ल्यू), 01 फरवरी 2003।

हवलदार (क्लर्क) राम नाथ यादव (सं. 14367100एम अब जेसी-265293एन), 01 फरवरी 2003*।

हवलदार (क्लर्क) धरम नाथ साह (सं. 14480772एम अब जेसी-265293एन), 01 फरवरी 2003।

सब्सटैटिव सूबेदार मेजर (आर टी) के पद में

सूबेदार सुखवन्त सिंह गिल (जेसी-82357ए), 27 अक्टूबर 2002/ 01 अक्टूबर 2002*।

सूबेदार बेनी प्रसाद बदौनी शर्मा (जेसी-85887ए), 28 अक्टूबर 2002/ 01 अक्टूबर 2002*।

सूबेदार सुरेश तिवारी (जेसी-86004एक्स), 28 अक्टूबर 2002/ 01 अक्टूबर 2002*।

सब्सटैटिव सूबेदार (आर टी) के पद में

नायब सूबेदार मनी लाल (जेसी-255001एम), 1 नवम्बर 2002।

नायब सूबेदार राम नरेश तिवारी (जेसी-255005एच), 27 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

नायब सूबेदार इकबाल सिंह रैना (जेसी-255422पी), 18 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

नायब सूबेदार सुरेन्द्रा नारायण पाण्डे (जेसी-255002पी), 16 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

नायब सूबेदार प्यारा सिंह (जेसी-255003एक्स), 1 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

नायब सूबेदार मनी नाथ मिश्रा (जेसी-255006एल), 22 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

नायब सूबेदार सुरेश कुमार तिवारी (जेसी-255004ए), 21 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

नायब सूबेदार पुष्कर दत्ता (जेसी-255048एक्स), 09 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

नायब सूबेदार राम प्रपन्न पाण्डे (जेसी-255049ए), 23 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

नायब सूबेदार सुखदेव राज सिंह (जेसी-255423एक्स), 22 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

नायब सूबेदार मुरलीधर मिश्रा (जेसी-255086एन), 18 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

नायब सूबेदार अशोक कुमार पाण्डे (जेसी-255050पी), 23 नवम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

नायब सूबेदार राम बल द्विवेदी (जेसी-255007एन), 23 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002*।

सब्सटैटिव सूबेदार (जी डी) के पद में

नायब सूबेदार पी बाबू (जेसी-260577एम), 02 अप्रैल 2002/ 01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार दलप चन्द (जेसी-260789वाई), 15 मई 2002/ 01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार कृपाल सिंह (जेसी-260706एच), 01 अप्रैल 2002।

नायब सूबेदार गौर बाबू सिंघा (जेसी-260622पी), 01 अप्रैल 2002।

नायब सूबेदार सिवनाथ सिंह (जेसी-261126ए), 01 अप्रैल 2002।

नायब सूबेदार शुभ करन (जेसी-261215वाई), 10 मई 2002/ 01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार हरभजन सिंह (जेसी-260867एस), 08 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार देव राज (जेसी-261159एल), 25 जून 2002*।

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-260799एच), 30 मई 2002/ 01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार भाग सिंह (जेसी-261109ए), 1 अप्रैल 2002।

नायब सूबेदार नानक चन्द (जेसी-260813के), 13 अप्रैल 2002/ 01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार उत्तम सिंह (जेसी-260721एक्स), 01 अप्रैल 2002।

नायब सूबेदार मोहर सिंह (जेसी-260711ए), 12 अप्रैल 2002/ 01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार काली प्रसाद बर्मन (जेसी-260935एन), 09 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार स्वप्न कुमार दास (जेसी-260727वाई), 18 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार बलवन्त सिंह (जेसी-260957एम), 13 अप्रैल 2002/ 01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार मुखराम प्रसाद (जेसी-262090वाई), 09 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार जगदीश राम (जेसी-261289एन), 15 अप्रैल 2002/ 01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार शिव चरन सुंग (जेसी-261112ए), 14 अप्रैल 2002/ 01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-261137एम), 22 जून 2002/ 01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार यादव तुकाराम कृष्णा (जेसी-261269एम), 09 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार राय सी पी (जेसी-260948एल), 09 अप्रैल 2002/ 01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार हन्स राज (जेसी-261316एम), 03 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार सुखपाल मीना (जेसी-261625वाई), 31 मई 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार शन्कर सिंह (जेसी-261519डब्ल्यू), 12 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार दुदेतुल भार्गवा (जेसी-261709एच), 13 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार धूप सिंह यादव (जेसी-261586एफ), 05 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार मृदुल कुमार मिश्रा (जेसी-262212वाई), 05 मई 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार कृमान सिंह (जेसी-261761एल), 20 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार प्रेम चन्द (जेसी-261745एन), 20 मई 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार राम (जेसी-262080पी), 09 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार छोटे लाल पाल (जेसी-262329डब्ल्यू), 14 जुलाई 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह (जेसी-262014एम), 12 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार अलैक्झान्डर मैथ्यू (जेसी-261861डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2002/17 जून 2002*।

नायब सूबेदार शम्भू दत्त (जेसी-262258ए), 17 जून 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-262153डब्ल्यू), 11 मई 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार सुरजभान राना (जेसी-262469एच), 02 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार बिहारी सिंह शर्मा (जेसी-262516पी), 13 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार ए एम हरी (जेसी-262349के), 13 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार रघुनाथ सिंह तोमर (जेसी-262458एन), 01 अप्रैल 2002।

नायब सूबेदार राज नारायण ओझा (जेसी-262355एक्स), 01 अप्रैल 2002।

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-262509वाई), 06 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र घोष (जेसी-262404पी), 01 अप्रैल 2002।

नायब सूबेदार एमडी मुखतार अली (जेसी-262624वाई), 03 अप्रैल 2002/01 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार हजारी सिंह (जेसी-260767ए), 15 अप्रैल 2002/13 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार रमेश सिंह (जेसी-257836ए), 28 अप्रैल 2002/14 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार हरभोज सिंह (जेसी-260597एफ), 03 जून 2002/14 अप्रैल 2002*।

नायब सूबेदार नागाप्पा (जेसी-259539एल), 03 जुलाई 2002/21 अप्रैल 2002*।

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (क्लर्क जीडी/एसकेटी) के पद में सूबेदार रामचन्द्रन के (जेसी-211914एन), 01 जनवरी 2003।

सूबेदार हेम राज राना (जेसी-211904के), 14 फरवरी 2003*।

*(ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाएगी।)

सब्सटेंटिव सूबेदार, (क्लर्क जीडी/एसकेटी) के पद में नायब सूबेदार राज कुमार राव (जेसी-259807के), 09 दिसम्बर 2002*।

*(ज्येष्ठता 17 अक्टूबर 2002 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-259941पी), 01 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार जगत सिंह (जेसी-259943ए), 01 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार चाकोचन बी जी (जेसी-260129एफ), 02 दिसम्बर 2002*।

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द जोशी (जेसी-260355वाई), 01 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार करन सिंह मेहला (जेसी-259975एच), 09 दिसम्बर 2002*।

नायब सूबेदार अमर सिंह रावत (जेसी-260347ए), 04 दिसम्बर 2002*।

*(ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार पूरन दास (जेसी-260346ए), 10 जनवरी 2003*।

नायब सूबेदार भूप सिंह (जेसी-260365एच), 06 जनवरी 2003*।

*(ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार कमलेश कुमार राना (जेसी-260451एन), 01 जनवरी 2003।

नायब सूबेदार जवाल सिंह (जेसी-260453वाई), 01 जनवरी 2003।

नायब सूबेदार रामवीर सिंह (जेसी-260455के), 06 जनवरी 2003*।

नायब सूबेदार बलजिन्दर सिंह (जेसी-260456एम), 06 जनवरी 2003*।

नायब सूबेदार कमलेश चन्द शुक्ला (जेसी-260457पी), 01 जनवरी 2003।

नायब सूबेदार जसवीर सिंह (जेसी-260461एस), 30 जनवरी 2003*।

नायब सूबेदार मनोरंजन दैमारी (जेसी-260367एन), 10 जनवरी 2003*।

*(ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार केश नारायण (जेसी-260359पी), 25 जनवरी 2003*।

*(ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार रामफल यादव (जेसी-260593एल), 01 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार सत्यावीर सिंह (जेसी-260594एन), 01 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार सुनील कुमार जानी (जेसी-260649एन), 01 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार गौर चन्द सिन्घा (जेसी-260650एफ), 01 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार पवित्ररत्न ईके (जेसी-260660एल), 01 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार राम फल सिंह (जेसी-260654एक्स), 01 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार विजया कुमार पिल्लै बी एस (जेसी-260655ए), 01 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार वाराणसी वेनकट रमना (जेसी-260656एच), 01 फरवरी 2003।

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (क्लर्क जीडी) के पद में
सूबेदार भगत राम (जेसी-213389एफ), 07 मार्च 2003*।

*(ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जाएगी।)

सब्सटेंटिव सूबेदार (क्लर्क जीडी/एसकेटी) के पद में
नायब सूबेदार बाबु सिंह तोमर (जेसी-260366एल), 15 जनवरी 2003*।

नायब सूबेदार राम मेहर (जेसी-260592एच), 11 जनवरी 2003*।

*(ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार हरेन्द्रा सिंह बिष्ट (जेसी-261390एन), 03 मार्च 2003*।

नायब सूबेदार बसन्त लाल (जेसी-260668एक्स), 01 मार्च 2003*।

*(ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जाएगी।)

सब्सटेंटिव सूबेदार (जीडी) के पद में

नायब सूबेदार भोसले नानासाहेब शामराव (जेसी-261012वाई), 05 जनवरी 2002/01 जनवरी 2002*।

नायब सूबेदार भूर्न बहादुर गुरंग (जेसी-262037एन), 01 मार्च 2002।

नायब सूबेदार राम लाल सिंह (जेसी-259503एम), 01 जून 2002।

नायब सूबेदार वेद नारायण भट्ट (जेसी-260903एल), 22 जून 2002/01 जून 2002*।

नायब सूबेदार सुरिन्दर सिंह (जेसी-261128एल), 01 जून 2002।

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-261069के), 19 अक्टूबर 2002/01 जून 2002*।

नायब सूबेदार पी गांधी राजन (जेसी-260814एम), 01 जून 2002।

नायब सूबेदार कैलाश चन्द्र यादव (जेसी-261286ए), 08 जून 2002/01 जून 2002*।

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार एस (जेसी-261303पी), 08 जुलाई 2002/01 जुलाई 2002*।

नायब सूबेदार काना राम (जेसी-261710एक्स), 10 सितम्बर 2002/23 जुलाई 2002*।

नायब सूबेदार देवी सिंह राठौड़ (जेसी-261114एल), 13 सितम्बर 2002/23 अगस्त 2002*।

नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-257964एक्स), 14 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार हरबन्स लाल (जेसी-258771के), 02 अक्टूबर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-258885पी), 03 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार अखिलेश कुमार (जेसी-258396के), 01 सितम्बर 2002।

नायब सूबेदार सिद्धार्थ रायसिंहवर्धे (जेसी-260292एफ), 08 नवम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार लेख राज (जेसी-259917वाई), 01 सितम्बर 2002।

नायब सूबेदार नरेश कुमार दागर (जेसी-259581के), 27 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार चेत सिंह (जेसी-259903वाई), 24 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार बली राम प्रसाद (जेसी-260116के), 01 नवम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार श्याम सुन्दर (जेसी-260304एल), 24 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार जसवन्त सिंह (जेसी-260010एक्स), 08 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार भूपेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-260230एफ), 20 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार दोल्हे गोरखनाथ जगन्नाथ (जेसी-260416एल), 01 सितम्बर 2002।

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-260579वाई), 10 नवम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-260702एम), 03 अक्टूबर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार हरिकेश बहादुर सिंह (जेसी-260839पी), 01 सितम्बर 2002।

नायब सूबेदार सुरेश बहादुर सिंह (जेसी-260806एन), 01 अक्टूबर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार के एक्स जॉर्ज (जेसी-260623एक्स), 07 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-260938एफ), 05 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार तिलक राज (जेसी-261149एफ), 04 नवम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार के राजेन्द्रन (जेसी-261225एच), 11 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार दलीप सिंह (जेसी-261374डब्ल्यू), 17 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार जॉन सकारिया (जेसी-261187एक्स), 01 सितम्बर 2002।

नायब सूबेदार रवी नाथन आर (जेसी-261171एम), 22 अक्टूबर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार सत्य नारायन (जेसी-261619एफ), 01 सितम्बर 2002।

नायब सूबेदार सन्त कुमार (जेसी-261427के), 12 अक्टूबर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार तरन सिंह (जेसी-260604वाई), 11 अक्टूबर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार जी ई लोंगोवन (जेसी-262033एक्स), 23 अक्टूबर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-262489डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2002।

नायब सूबेदार पाउलरी शिवारामा कृष्णय्या (जेसी-263371एफ), 01 अक्टूबर 2002/01 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार बतन चन्द (जेसी-261381एम), 16 अक्टूबर 2002/26 सितम्बर 2002*।

नायब सूबेदार के पद में

बी एच एम देया राम सिंह (14458452एक्स अब जेसी-265392डब्ल्यू), 25 जनवरी 2003/01 नवम्बर 2002*।

हवलदार दौलत राम (14484407एच अब जेसी-265393वाई), 29 जनवरी 2003/03 नवम्बर 2002*।

बी एच एम पतले तिर्थराज दुली (14376174एच अब जेसी-265394एफ), 02 फरवरी 2003/22 नवम्बर 2002*।

हवलदार शिन्देरवण्ड देवराम (14359410एच अब जेसी-265395के), 05 फरवरी 2003/22 नवम्बर 2002*।

हवलदार मेहंगा सिंह (14467079के अब जेसी-265396एम), 17 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002*।

हवलदार नुन्ना बीरा प्रसाद (14468954एन अब जेसी-265397पी), 24 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002*।

हवलदार बलकर्न सिंह (14475886एन अब जेसी-265398एक्स), 24 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002*।

हवलदार भगवान प्रसाद मिश्रा (14389622एच अब जेसी-265399ए), 15 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002*।

हवलदार शिव प्रसाद यादव (14466288पी अब जेसी-265400के), 01 जनवरी 2003।

हवलदार शिव बनी सिंह (14473199वाई अब जेसी-265401एम), 01 जनवरी 2003।

हवलदार सुरेन्द्र सिंह यादव (14356449के अब जेसी-265402पी), 25 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार विजय कुमार (14459596एम अब जेसी-265430एक्स), 11 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार मलकियत सिंह (14374233एल अब जेसी-265404ए), 11 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार आरोक्या स्वामी एस (14472638एम अब जेसी-265405एच), 12 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार गुरनाम सिंह (14359115ए अब जेसी-265406एल), 05 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003*।

हवलदार विप्लेश कुमार (14481610एन अब जेसी-265407एन), 01 फरवरी 2003।

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

वायु रक्षा तोपखाना कोर

नायब सूबेदार के पद में

बीएचएम जय सिंह (14349359ए अब जेसी-298637एफ), 15 फरवरी 2003/01 जनवरी 2002*।

बीएचएम कामता सिंह (14358437एन अब जेसी-298638के), 31 मार्च 2003/28 नवम्बर 2002*।

बीएचएम सतेंद्र नारायन सिंह (14351690एम अब जेसी-298639एम), 25 मार्च 2003/01 दिसम्बर 2002*।

बीएचएम लाजरस बारला (14349345ए अब जेसी-298640एफ), 03 मार्च 2003/01 फरवरी 2003*।

बीएचएम उमा शंकर (14355314डब्ल्यू अब जेसी-298641के), 12 मार्च 2003/01 फरवरी 2003*।

हवलदार के महेंद्रन (14350043ए अब जेसी-298642एम), 17 मार्च 2003/01 फरवरी 2003*।

बीएचएम लाल सिंह (14373077ए अब जेसी-298643पी), 01 अप्रैल 2003/20 फरवरी 2003*।

हवलदार रथीश कुमार पी (14366830एल अब जेसी-298644एक्स), 26 मार्च 2003/01 मार्च 2003*।

बीएचएम बाबू लाल (14341186वाई अब जेसी-298645ए), 01 अप्रैल 2003।

हवलदार रामेश्वर सिंह (14468305एच अब जेसी-298646एच), 01 अप्रैल 2003।

बीएचएम सी सुंदरेसन (14361212डब्ल्यू अब जेसी-298647एल),
01 अप्रैल 2003

बीएचएम रविंद्रन के (14382991एक्स अब जेसी-298648एन),
01 अप्रैल 2003

हवलदार सुरेश बाबू शर्मा (14473102एच अब जेसी-298649डब्ल्यू),
12 अप्रैल 2003/01 अप्रैल 2003*

हवलदार सुलतान सिंह (14332684के अब जेसी-298650एल),
19 अप्रैल 2003/06 अप्रैल 2003*

हवलदार सिद्धप्पा ए (14341524एल अब जेसी-298651एन),
22 अप्रैल 2003/01 अप्रैल 2003*

हवलदार जनार्दन सिंह (14372208एन अब जेसी-298652डब्ल्यू),
01 जनवरी 2003

हवलदार जीबोनो कुमार जेन्ना (14335754एच अब जेसी-298653वाई), 11 अप्रैल 2003/01 अप्रैल 2003*

हवलदार पी वीरासेकरन (14343975के अब जेसी-298654एफ),
01 मई 2003

हवलदार करनपाल चौहान (14377947के अब जेसी-298655के),
01 मई 2003

हवलदार सुखदेव (14482268एल अब जेसी-298656एम), 01
अप्रैल 2003

हवलदार सरदार सिंह (14375933एल अब जेसी-298657पी), 01
मई 2003

बीएचएम हिरा लाल भावरीया (14366662वाई अब जेसी-298658एक्स), 21 मार्च 2003/30 नवम्बर 2002*

हवलदार चवान उत्तम सदाशीव (14366641एफ अब जेसी-298659ए), 02 अप्रैल 2003/30 नवम्बर 2002*

हवलदार जय किशन (14374796एल अब जेसी-298660पी), 02
अप्रैल 2003/30 नवम्बर 2002*

बीएचएम उदयवीर सिंह (14387790एच अब जेसी-298661एक्स),
29 मार्च 2003/01 दिसम्बर 2002*

बीएचएम जाधव तानाजी धिमनराव (14365307एन अब जेसी-298662ए), 10 अप्रैल 2003/01 फरवरी 2003*

हवलदार मिशाल सोबरोबा काशीनाथ (14484946वाई अब जेसी-298663एच), 30 अप्रैल 2003/28 फरवरी 2003*

हवलदार देशमुख दिलीप राव प्रतापराव (14335408एच अब जेसी-298664एल), 30 अप्रैल 2003/28 फरवरी 2003*

हवलदार लाल मनी (14367707वाई अब जेसी-298665एन), 10
मार्च 2003/01 मार्च 2003*

बीएचएम आर दोरई एच (14358515ए अब जेसी-298666डब्ल्यू),
26 मार्च 2003/01 मार्च 2003*

बीएचएम चर्की पी यु (14342427ए अब जेसी-298667वाई), 01
अप्रैल 2003

हवलदार अशोक कुमार राय (14341847एन अब

जेसी-298668एफ), 30 अप्रैल 2003/01 अप्रैल 2003*

हवलदार प्रजापति रमेश कुमार जीवराजभाई (14381005एल अब जेसी-298669के), 1 मई 2003/14 अप्रैल 2003*

हवलदार शिंदे कैलाश सखाराम (14350378एक्स अब जेसी-298670वाई), 28 अप्रैल 2003/14 अप्रैल 2003*

हवलदार जसपाल सिंह (14381571एल अब जेसी-298671एफ),
01 मई 2003

*(पदोन्नति के लिए श्रेष्ठता)

राजेन्द्र चतुर्दी
अवर सचिव

रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग

सं. 477, दिनांक 18 जुलाई 03--सम्पूर्ण, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ/नियुक्तियाँ करते हैं:--

1. नमूना कक्ष, मुम्बई के श्री पी. पी. अब्राहम, वरिष्ठ भंडार अधीक्षक की 17 अप्रैल 03 (पूर्वाह्न) से 02 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर व.गु.आ.स्था. (सा. भंडार), मुम्बई में स्थानस्थ भंडार अधिकारी के रूप में।

2. योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली की श्रीमती उष्मा फणी, सहायक की 03 मार्च 03 (पूर्वाह्न) से 03 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर गु.अ.नि. (प्रणाली), सिकन्दराबाद में प्रशासन अधिकारी के रूप में।

3. कार्यालय सहायक निदेशक, समनुवर्गी गुप्त वार्ता (गृह मंत्रालय), ऐजबल (मिजोरम) के श्री एस. के. साहू, सहायक की 28 अप्रैल 03 (पूर्वाह्न) से प्रतिनियुक्ति के आधार पर व.गु.आ.स्था. (आयुध) कोलकाता में वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी ग्रेड-II के रूप में। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा इस नियुक्ति के छह पहले वास्तविक रक्षा गु.आ. संस्थान, बंगलौर में 30 दिसम्बर 02 (पूर्वाह्न) से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति शामिल है, तीन वर्षों के लिये 29 दिसम्बर 05 (अपराह्न) तक होगी।

4. विष्कोटक विभाग, सेमीनारी ट्रिस्ट, नागपुर के श्री एस. के. गुप्ता, कार्यालय अधीक्षक की 27 मई 03 (पूर्वाह्न) से 03 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर व.गु.आ.स्था. (सा. भंडार) कोलकाता में वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी ग्रेड-II के रूप में।

एस. एन. त्रिपाठी
उप सचिव

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 498, दिनांक 21 जुलाई 03--निम्नलिखित पदोन्नति की जाती है:--

सी.डब्ल्यू. एण्ड ई. निर्देशालय, दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री अजय सिंह तथा सी.सी.ई.आर. एण्ड डी. (एक) के श्री डी. वेंकटेश्वरालू को सी.डब्ल्यू. एण्ड ई. निर्देशालय, दिल्ली में क्रमशः 07

अप्रैल 2003 (पूर्वाह्न) तथा 21 अप्रैल 2003 (पूर्वाह्न) से मुख्य निर्माण अभियन्ता के रूप में रु. 16400-450-20000 के वेतनमान पर।

एन.एस.टी.एल. विशाखापटनम के श्री एम. एन. सलीम, वरिष्ठ लेखा अधिकारी ग्रेड-I को जी.टी.आर.ई. बेंगलूर में मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में 28 अप्रैल 2003 (पूर्वाह्न) से रु. 12000-375-16500 के वेतनमान पर।

वैमानिकीय विकास संस्थापन (ए डी ई), बेंगलूर के श्री एस कृष्णामूर्थी, भण्डार अधिकारी को उसी संस्थापना में वरिष्ठ भण्डार अधिकारी, ग्रेड-II के रूप में 07 मार्च 2003 (पूर्वाह्न) से रु. 8000-275-13500 के वेतनमान पर।

जे. के. खडवाल
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

वायु सेना

सं. 479, दिनांक 22 जुलाई 03--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ मूल रैंक में करते हैं:--

भारतीय वायु सेना

विमानिक अभियांत्रिकी मकेनिकल शाखा

फ्लाईंग अफसर फ्लाईट लेफ्टिनेंट रैंक में

सैनी जी एस (25467), बी सेन्थीलवल (25449), विजय पंवार (25441), जी कुमार (25455), पंडित ए (25439), पी राधाकृष्णनन (25431), सी वी हरिकृष्णनन (25435), मुकेश अग्निहोत्री (25424), श्री अजीत कुमार (25428), शर्मा एस (25436), प्रमोद टी नायर (25448), गोपाल कृष्णना श्रीकण्ठ (25472), टी संगीत (25465), निर्मल जीत सिंह बाजवा (25456), हेमन्त कुमार मिश्रा (25443), रोहित के आर सिंह (25434), वर्मा पी (25466), बी पी मिश्रा (25437), रंधीर सिंह राना (25460), आशिष टंडन (25469), दीपक भार्गवा (25471), राहुल रामचन्द्रा देशपाण्डे (25470), एन चेतन सिंह (25450), आशिष आनन्द प्रयागी (25425), डी आर सिंह (25451), सतीश कुमार सैनी (25459), अमित्वा बैनिक (25454) और कश्यप ए डी (25464), 27 दिसम्बर 2001 से।

विमानिक अभियांत्रिकी इलेक्ट्रीकल शाखा

फ्लाईंग अफसर फ्लाईट लेफ्टिनेंट रैंक में

बी राय (25493), बी एन लुते (25816), हिमांशु अग्रवाल (25500), प्रशान्त श्रीवास्तवा (25481), देसाई पी पी (25479), दिनेश कुमार मिश्रा (25478), सी वी अरुन (25484), मनप्रीत सिंह गिल (25513), प्रदीप कुमार भारद्वाज (25487), डी. सिन्हा

(25502), सुधांशु सैनी (25499), मंदीप सिंह (25477), सुबोध कुमार मुधोल (25507), द्विवेदी ए (25483), एस कार्तिकेन (25510) और अजय यादव (25506), 27 दिसम्बर 2001 से।

एरोनोटिक्स इंजीनियरिंग (मैकेनिकल्स) शाखा

फ्लाईंग ऑफीसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक में

बसवराज कालुरामठ (25462), कुन्दु आयन (25461) और एम पी बालाबन्धन (25444), दिनांक 27 दिसम्बर 01।

सिंह पी (25429), दिनांक 07 जनवरी 02।

एम महाराजन (25426), चिन्मय सिंह चौहान (25423), बिराजु कोटेक विकास (25453) और धर्मेन्द्र कुमार दीक्षित (25459), दिनांक 15 जुलाई 2002 से।

एरोनोटिक्स इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल्स) शाखा

फ्लाईंग ऑफीसर की मूल फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक में

संकेती एस आर (25485), सुमीत सोनी (25491), बी आर जोशी (25488), माधव पी (25496), अमनजय जैन (25475), अशोक पन्त (25508), निशित कुमार वर्मा (25511), हरिन्दर सिंह (25501) और सी मुनासेकरन (25494), दिनांक 27 दिसम्बर 01 से।

विनोद कुमार अग्रवाल (25512), रोहित शोरी (25504), पी कश्यप (25482) और सुरेन्द्र सिंह राव (25497), दिनांक 07 जनवरी 02।

जयन्त कुमार (25486) दिनांक 15 जुलाई 02 से।

विमानिक अभियांत्रिकी मकेनिकल शाखा

फ्लाईंग अफसर फ्लाईट लेफ्टिनेंट रैंक में

बी एल एल रेड्डी (25468), नितिन मयाल सिंह बिबर (25447), एन पी रेड्डी (25445), जगदीशचन्द्र यूप एस (25433), भारत शर्मा (25432), संजय एच आर (25457), घोरपाडे एस सी (25440), ए के सिन्हा (25446), दीपक कुमार सिंह (25463), दुलार ए (25452) और बी चौधरी (25430), 07 जनवरी 2002 से।

विमानिक अभियांत्रिकी इलेक्ट्रीकल शाखा

ए प्रशान्त (25489), गौरव सक्सेना (25474), आर एस पवार (25498), एन सुनील कुमार सिंह (25490) और अक्षय सुरंगीलीकर (25514), 07 जनवरी 2002 से।

एस. वी. कुटे

स्क्वाड्रन लीडर

ए डी पी ओ 3(डी)

ARMY BRANCH

DIRECTORATE GENERAL OF NATIONAL CADET CORPS

No. 473, dated 16 July 2003.—The President is pleased to appoint the following assistants of AFHQ Civil Services as officiating Section Officer under Rule 7(8) of AFHQ Civil Services Rules 2001 with effect from 28th April 2003 to 24th August 2003 or till regular incumbents become available whichever is earlier.

1. Shri Vijendra Singh

2. Smt. Radhika Venkataraman

2. The appointment is made purely as a stopgap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

3. The officer will not have any claim for appointment to the above post on regular basis nor will his service rendered as Section Officer under Rule 7(8) reckon for seniority.

4. The appointment is subject to any modification that may become necessary in course of implementation of direction of the Hon'ble High Court of Delhi in WP filed by the department and also any other court cases that may have a bearing on the seniority in the grade of assistant.

SANTOSH DAS GUPTA
Dy Chief Administrative Officer (A)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 474, dated 21 July 2003.—The President is pleased to make the following appointment:—

The Undermentioned individuals, to be temporary Scientist 'E' on probation for one year in Programme AD Hyderabad, with effect from the dates mentioned against their names in the pay scale of Rs. 14300-400-18300:—

Shri Upendra Kumar Singh, 03.09.2001

Ms Arundhati Bhattacharyya, 03.09.2001

Sh. SR Chandramouli, to be temporary Scientist 'D' on probation for one year in CAIR, Bangalore with effect from 24 Sep 2001 (F/N) in the pay scale of Rs 12000-375-16500.

Smt. V Sangamithra, to be temporary Scientist 'D' on probation for one year in LRDE, Bangalore with effect from 22 Nov 2001 (F/N) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500.

Shri Duvvuri Seshagiri, to be temporary Scientist 'D' on probation for one year in LRDE, Bangalore with effect from 23 Jan 2002 (F/N) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500.

Dr. Reena Sharma, to be temporary Scientist 'D' on probation for one year in CABS, Bangalore with effect from 26 Jul 2001 (F/N) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500.

The under mentioned individuals, to be temporary Scientist

'D' on probation for one year in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 as per details mentioned against their names:—

Shri PBV Ramamurthy, 12.06.2000—RCI

Shri G. Srinivasa Rao, 26.06.2000—Programme AD

Shri C S Adishesha, 07.08.2001—Programme AD

Ms Shashikala Sinha, 22.11.2001—RCI/Programme AD

Shri A V Sudhakara Reddy, 03.12.2001—RCI/Programme AD

Shri K. V. B. Vasantha Rayudu, 21.01.2002—RCI

Shri V Ranganath to be Temporary Senior Admin Officer Grade I on probation for one year in GTRE, Bangalore with effect from 20 Mar 2003 (F/N) in the pay scale of Rs. 10000-325-15200.

Shri Ambika Prasad Ghosh to be temporary Senior Admin Officer Grade II on probation for one year in DEBEL, Bangalore with effect from 03 Apr 2003 (F/N) in the pay scale of Rs. 8000-275-13500.

J K KHADWAL
Jt. Director (Pers)

No. 475, dated 17 July 03.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

To be Nb Sub (GD)

Hav Neelamkavil Porinchu Kutty Jacob (8823890X now JC-841371Y), 29 Apr 2003*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allowances)

Hav Bharathan Mathath Kallil (8823909K now JC-841432L), 20 May 2003**

Hav Ram Singh (11020259L now JC-841435Y), 22 Apr 2003**

Hav Tek Ram (10465243K now JC-841436F), 24 Mar 2003*

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allowances)

Hav Chitreshwar Dubey (14215663H now JC-841443X), 07 Apr 2003***

*** (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allowances)

Hav Damodaran Kalam Valappil (14309655H now JC-841460X), 07 May 2003****

Hav Raghubir Singh (13604692P now JC-841461A), 01 Apr 2003****

Hav Ram Singh (2859233M now JC-841463L), 01 Apr 2003****

Hav Shyam Singh (4050552H now JC-841464N), 01 Apr 2003****

Hav Gajender Singh (5744775M now JC-841465W), 01 Apr 2003****

Hav Ram Phal Singh (6307607Y now JC-841466Y), 16 Apr 2003****

****(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2003 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub Clerk

Hav/Clk Kuldeep Kumar (6901640X now JC-841450N), 03 May 2003*****

Hav/Clk Desh Raj (13609158F now JC-841459H), 29 May 2003*****

*****(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clerk wef 08 Mar 2003 without effect on pay and allowances)

S. N. VERMA
Under Secy.

REGULAR ARMY
ARMY SERVICE CORPS
(SUPPLY)

No. 476, dated 16 July 03.—The President is pleased to make the following promotions:—

To be Subedar Major : CLK (GD)

Subedar Ghorapade Shivaji Vaghu (JC-640116W), 02 Mar 2001*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2001 without effect on pay & allces)

Subedar Raghubir Singh (JC-640185M), 01 May 2001

Subedar Vishvakarama Sachidanand Yogeshwar (JC-640289N), 01 May 2001

Subedar Hari Raman J (JC-640198K), 01 Jun 2001

Subedar Sunil Kumar Sil (JC-640290H), 01 Jun 2001

Subedar Ramesh Boyat (JC-640200W), 02 Aug 2001*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2001 without effect on pay & allces)

Subedar Dilbag Singh (JC-640202W), 01 Aug 2001

Subedar Janki Lal (JC-640207A), 01 Sep 2001

Subedar M Venkata Subbaiah (JC-640213N), 01 Sep 2001

Subedar Subir Kumar Sarkar (JC-640187X), 15 Jun 2001*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 24 May 2001 without effect on pay & allces)

Subedar G Ramakrishnaiah (JC-640233F), 05 Jan 2002*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2001 without effect on pay & allces)

Subedar Bijender Singh (JC-640217K), 24 Dec 2001*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2001 without effect on pay & allces)

Subedar Rajan Saikia (JC-640240X), 03 Jan 2002*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2002 without effect on pay & allces)

Subedar Prem Rajan Mathathil (JC-640250F), 01 Feb 2002

Subedar Gulam Sabir Khan (JC-640252M), 02 Feb 2002*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2002 without effect on pay & allces)

Subedar Ajit Singh (JC-640189H), 01 Apr 2002

Subedar Gajraj Singh Yadav (JC-640254X), 26 Jul 2002*

*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2002 without effect on pay & allces)

Subedar Ram Prasad (JC-640293W), 01 Jul 2002

Subedar Awadh Narain Singh (JC-640300F), 01 Aug 2002

Subedar Alex G (JC-640301K), 01 Sep 2002

Subedar Kavirajan KN (JC-640302M), 01 Sep 2002

Subedar G Muthial Raj (JC-640305A), 01 Oct 2002

Subedar J K Nair (JC-640309W), 01 Feb 2003

To be Subedar : CLK (GD)

Naib Subedar Uttam Kumar Barua (JC-641085N), 10 May 2001

Naib Subedar Om Prakash (JC-641086N), 01 May 2001

Naib Subedar Mahi Pal Singh (JC-641088F), 01 May 2001

Naib Subedar Vijaya Kumar R (JC-641087Y), 16 May 2001*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 May 2001 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Madhusoodhanan Nair (JC-641122W), 01 Jan 2002

Naib Subedar K K Bhattacharjee (JC-641111K), 18 Dec 2001*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 2001 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Nafe Singh Kadian (JC-641126M), 01 Feb 2002

Naib Subedar Madan Lal Meena (JC-641248W), 01 Feb 2002

Naib Subedar Uday Kumar Yadav (JC-641118N), 01 May 2002*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 04 Dec 2001 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Narayan Chandra Mandal (JC-641252Y), 27 May 2002*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 May 2002 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Narasingha Giri (JC-641124F), 01 Jan 2002

Naib Subedar Ashish Kumar Chandra (JC-641251W), 01 Oct 2002*

*(Granted seniority in the rank of Subedar 27 Aug 2002 without effect on pay & allces).

Naib Subedar K N Mishra (JC-641271K), 01 Nov 2002

Naib Subedar Stalin G (JC-641270F), 01 Oct 2002

Naib Subedar Shilender Kumar (JC-641275A), 11 Feb 2003*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Feb 2003 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Shangara Singh (JC-641269M), 01 Oct 2002

Naib Subedar Vimallesh Kumar (JC-641272M), 01 Jan 2003

Naib Subedar Mahendra Kumar (JC-641096A), 01 Aug 2001

Naib Subedar G Anjaneyulu (JC-641098L), 01 Sep 2001

Naib Subedar Sundar Tiwari (JC-641104N), 01 Oct 2001

Naib Subedar B N Singh (JC-641105W), 01 Oct 2001

Naib Subedar Harbans Lal (JC-641107F), 01 Nov 2001

Naib Subedar C H S Khimaji (JC-641112M), 01 Nov 2001

Naib Subedar Ganga Singh T (JC-641113P), 01 Nov 2001

Naib Subedar Mohinder Singh (JC-641247N), 01 Oct 2001

Naib Subedar Harbansh Kumar Singh (JC-641097H), 13 Dec 2001*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2001 without effect on pay & allces)

Naib Subedar P N Yadav (JC-641102H), 18 Sep 2001*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2001 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Jasbir Singh Kanwar (JC-641120L), 01 Dec 2001

Naib Subedar Uma Shankar Mishra (JC-641108K), 01 Jan 2002*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 2001 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Harish Chander (JC-641114X), 01 Dec 2001

Naib Subedar K K Tiwari (JC-641116H), 10 Jan 2002*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 2001 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Shiva Putra Ganji (JC-641123Y), 01 Jan 2002

Naib Subedar Krishna Gogoi (JC-641249Y), 01 Feb 2002

Naib Subedar V Soman (JC-641070L), 28 Jun 2001*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jan 2001 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Ramawatar Singh Yadav (JC-641089K), 01 Jul 2001

Naib Subedar Anand Swaroop (JC-641090Y), 01 Jul 2001

Naib Subedar Amarjit Singh (JC-641091F), 01 Aug 2001

Naib Subedar Asim Kumar Singha Roy (JC-641092K), 01 Aug 2001

Naib Subedar Vijay Kumar (JC-641094P), 01 Aug 2001

Naib Subedar Kolekar Sopan Rama Chandra (JC-641095X), 01 Aug 2001

Naib Subedar M K G Rajan (JC-641071N), 01 Dec 2001*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Feb 2001 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Tejveer Singh (JC-641100X), 01 Sep 2001

Naib Subedar Ram Narain (JC-641103L), 04 Dec 2001*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 2001 without effect on pay & allces)

Naib Subedar S K. Panja (JC-641106Y), 01 Dec 2001*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 2001 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Sadananda CU (JC-641109M), 01 Nov 2001

Naib Subedar T J Singh Banshi Singh (JC-641117L), 17 Dec 2001*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 2001 without effect on pay & allces)

Naib Subedar S P Singh (JC-641119W), 01 Dec 2001

Naib Subedar S Santiago (JC-641253F), 01 Jun 2002

Naib Subedar Chandran KV (JC-641255M), 01 Jul 2002

Naib Subedar Mahendra Pal Sharma (JC-641256P), 01 Aug 2002

Naib Subedar Sikander Khan (JC-641262H), 01 Sep 2002

Naib Subedar Bachu Singh (JC-641512Y), 01 Sep 2002

Naib Subedar Durga Pada Manna (JC-641263L), 01 Sep 2002

Naib Subedar Krupa Sindhu Sahoo (JC-641265W), 01 Sep 2002

Naib Subedar Ashoka Kumar Rout (JC-641266Y), 01 Sep 2002

Naib Subedar Harinam Singh (JC-641268K), 01 Nov 2002*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2002 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Mohammad Naeem (JC-641246L), 14 Nov 2002*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Jun 2002 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Desh Raj Jamwal (JC-641257X), 01 Aug 2002

Naib Subedar Harish Chandra Singh Bhandari (JC-641258A), 01 Sep 2002

Naib Subedar Rishi Raj (JC-641259H), 01 Nov 2002*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2002 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Jagat Pati Dawn (JC-641267F), 01 Sep 2002

Naib Subedar Raghupathi VD (JC-641260X), 01 Sep 2002

Naib Subedar Tribhwan Prakash Sharma (JC-641273P), 01 Feb 2003

Naib Subedar Vikram Singh Yadav (JC-641276H), 01 Mar 2003

Naib Subedar Yog Raj Singh (JC-641277L), 01 Mar 2003

Naib Subedar Chandu Sahu (JC-641278N), 01 Mar 2003

Naib Subedar Umesh Mahto (JC-641280L), 01 Mar 2003

Naib Subedar Ram Saroop Sharma (JC-641281N), 01 Mar 2003

Naib Subedar Mohammed Munna (JC-641284F), 01 Apr 2003

Naib Subedar Udai Pal Singh (JC-641282W), 24 Apr 2003*

*(Granted seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2003 without effect on pay & allces)

Naib Subedar Dharam Pal Singh (JC-641285K), 01 May 2003

Naib Subedar Jagvir Singh Rathore (JC-641287P), 01 May 2003

Naib Subedar Kunwar Bahadur Singh (JC-641288X), 01 May 2003

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Naib Sub

BHM Chatar Singh (14352830A now JC-265312N), 23 Nov 2002/01 Sep 2002*

BHM Ran Singh (14339491M now JC-265313W), 26 Dec 2002/01 Oct 2002*

Hav Devi Singh Rathore (14489125N now JC-265314Y), 23 Oct 2002/01 Oct 2002*

BHM Harmeet Singh (14338023A now JC-265315F), 29 Jan 2003/17 Nov 2002*

Hav Ramanand Prasad Singh (JC-14336604Y now JC-265316K), 16 Dec 2002/29 Nov 2002*

Hav Devanand Jha (14488718N now JC-265317M), 22 Jan 2003/01 Dec 2002*

Hav Prithi Chand (14338187W now JC-265318P), 21 Jan 2003/01 Dec 2002*

Hav Challappan Nair Madhusudan Nair (14340558Y now JC-265319X), 14 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Rajendra Singh Tanwar (14471980A now JC-265320M), 01 Jan 2003

Hav Jagghul (14466722W now JC-265321P), 27 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Bipin Kishor Kujur (15100076F now JC-265322X), 27 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Narinder Singh (14335527H now JC-265323A), 01 Jan 2003

Hav Jagdarahan Singh (14344116L now JC-265324H), 14 Feb 2003/01 Jan 2003*

Hav Panneer Selvam S (14461011M now JC-265325L), 11 Feb 2003/01 Jan 2003*

Hav Ajmer Singh (14361425K now JC-265326N), 10 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Sugunan E (14361489P now JC-265327W), 10 Feb 2003/01 Jan 2003*

Hav Narendra Singh (14459537A now JC-265162H), 09 Jul 2002/07 May 2002*

Hav Ravi Shankar Mishra (14459712K now JC-265163L), 05 Dec 2002/01 Jun 2002*

Hav Tribhuwan Singh (14336820M now JC-265164N), 20 Sep 2002/01 Sep 2002*

Hav Gurcharan Singh (14497626H now JC-265165W), 28 Nov 2002/01 Sep 2002*

Hav Gyan Singh (14335293K now JC-265166Y), 30 Nov 2002/12 Oct 2002*

Hav Lal Singh (14479399L now JC-265167F), 27 Nov 2002/27 Oct 2002*

Hav Swaran Singh (14339163Y now JC-265168K), 07 Dec 2002/01 Nov 2002*

BHM Bhanwar Singh (14452455P now JC-265169M), 25 Nov 2002/01 Nov 2002*

Hav Krishna Banna (14334519X now JC-265170F), 30 Nov 2002/01 Nov 2002*

- Hav Man Singh (14339372W now JC-265171K), 16 Nov 2002/01 Nov 2002*
- Hav Sompal (14459217L now JC-265172M), 06 Dec 2002/01 Nov 2002*
- Hav Dalip Chand (14461424W now JC-265173P), 23 Dec 2002/01 Nov 2002*
- Hav Chandra Pal (14461910N now JC-265174X), 12 Dec 2002/01 Nov 2002*
- BHM Nihal Singh (14458847Y now JC-265175A), 06 Dec 2002/01 Nov 2002*
- Hav Shyamvir Singh (14455568H now JC-265176H), 06 Dec 2002/01 Nov 2002*
- BHM Ranjit Singh (14342112W now JC-265177L), 20 Nov 2002/01 Nov 2002*
- Hav Surendar Kumar (14367344A now JC-265178N), 05 Oct 2002/01 Apr 2002*
- BHM Lal Chand Singh Yadav (14461666Y now JC-265179W), 13 Dec 2002/01 Aug 2002*
- Hav Satyanarayan (14477564M now JC-265180L), 23 Dec 2002/01 Aug 2002*
- Hav Amma Rao Appikatla (14371328A now JC-265181N), 29 Nov 2002/31 Aug 2002*
- Hav Awani Kumar Mishra (14482808Y now JC-265182W), 10 Dec 2002/01 Sep 2002*
- Hav Yogendra Kumar (15105872N now JC-265183Y), 12 Nov 2002/01 Sep 2002*
- BHM Pardeep Kumar (14366670W now JC-265184F), 20 Nov 2002/28 Sep 2002*
- RHM Ajit Singh (14473471A now JC-265185K), 30 Dec 2002/01 Oct 2002*
- Hav Sakattar Singh (14346210N now JC-265186M), 28 Oct 2002/15 Oct 2002*
- Hav Suresh Kumar (14360194M now JC-265187P), 09 Dec 2002/01 Nov 2002*
- BHM Vijay Kishor (14375221H now JC-265188X), 09 Dec 2002/01 Nov 2002*
- Hav Aravindakshan PK (14477294H now JC-265189A), 10 Dec 2002/01 Nov 2002*
- Hav Jagmal Singh (14459033M now JC-265190P), 16 Dec 2002/01 Nov 2002*
- BHM Bishan Singh (14344572W now JC-265191X), 20 Nov 2002/01 Nov 2002*
- Hav Shinde Balasaheb Anna (14357869W now JC-265192A), 05 Dec 2002/01 Nov 2002*
- Hav Ram Singh (14476676A now JC-265193H), 01 Jan 2003/17 Nov 2002*
- Hav Bhavneshwar Singh (14338030W now JC-265194L), 31 Oct 2002/20 Aug 2002*
- BHM Shamsher Singh (14358737K now JC-265195N), 05 Dec 2002/29 Aug 2002*
- Hav Mohan Singh (14457365X now JC-265196W), 31 Nov 2002/31 Aug 2002*
- Hav Palden Ghising (14462125K now JC-265197Y), 02 Dec 2002/31 Aug 2002*
- RHM Devinder Singh (14337771F now JC-265198F), 01 Sep 2002
- Hav Deo Nandan Tiwari (14469221F now JC-265199K), 17 Dec 2002/01 Sep 2002*
- Hav Manoharan R (14365553Y now JC-265200N), 01 Dec 2002/01 Sep 2002*
- BHM Ajit Singh (14459215A now JC-265201W), 05 Dec 2002/10 Sep 2002*
- Hav V Vara Prasad Babu (14343034W now JC-265202Y), 24 Nov 2002/01 Oct 2002*
- Hav Bahadur Singh (14372585K now JC-265203F), 26 Nov 2002/02 Oct 2002*
- Hav Subhash Chandra (14459045F now JC-265204K), 06 Jan 2003/26 Oct 2002*
- BHM Balwinder Singh (14467163K now JC-265205M), 24 Dec 2002/30 Oct 2002*
- Hav Tun Bahadur Chhetri (14469177H now JC-265206P), 11 Jan 2003/31 Oct 2002*
- BHM Haradhan Pramanik (14464694W now JC-265207X), 20 Dec 2002/31 Oct 2002*
- Hav Sasi C (14460423F now JC-265208A), 07 Nov 2002/01 Nov 2002*
- Hav Narayanan P (14466720L now JC-265209H), 26 Dec 2002/01 Nov 2002*
- Hav Kamlesh Kumar (15103085N now JC-265210X), 31 Aug 2002/01 Aug 2002*
- RHM Devi Prasad Tiwari (14461198K now JC-265211A), 17 Sep 2002/01 Sep 2002*
- RHM Dilawar Singh (14385566X now JC-265212H), 15 Sep 2002/01 Sep 2002*
- RHM Ram Niwas (15103177A now JC-265213L), 28 Oct 2002/01 Oct 2002*
- RHM Naresh Kumar (14487434X now JC-265214N), 09 Oct 2002/01 Oct 2002*
- RHM Raghunath Rout (15104307K now JC-265215W), 17 Oct 2002/01 Oct 2002*
- RHM Lakhbir Singh (14486495H now JC-265216Y), 09 Nov 2002/01 Oct 2002*
- RHM Suresh Kumar (14396657F now JC-265217F), 01 Nov 2002
- RHM Potta Srinivasa Rao (14397865H now JC-265218K), 09 Nov 2002/01 Nov 2002*

RHM Birendra Kumar (15110460W now JC-265219M), 01 Nov 2002

RHM Rajpal Singh Yadav (15111089Y now JC-265220F), 02 Nov 2002/01 Nov 2002*

RHM Hans Raj (14377913W now JC-265221K), 05 Nov 2002/01 Nov 2002*

RHM Ghanshyam Singh (15103991L now JC-265222M), 18 Dec 2002/01 Dec 2002*

RHM Brij Lal Yadav (14487771M now JC-265223P), 18 Dec 2002/01 Dec 2002*

Hav Yogendra Singh Bhadoria (14464179K now JC-265408W), 20 Jan 2003/01 Oct 2002*

RHM Daljit Singh (14339749P now JC-265409Y), 02 Feb 2003/28 Oct 2002*

RHM Vazir Singh (14486679F now JC-265410N), 18 Dec 2002/01 Nov 2002*

Hav C Subiramani (14348222F now JC-265411W), 29 Jan 2003/01 Nov 2002*

Hav Ramachandran T (14345847L now JC-265412Y), 03 Feb 2003/01 Jan 2002*

Hav Rama Nand (14348638Y now JC-265413F), 27 Jan 2003/01 Dec 2002*

Hav Anil Kumar Panwer (14339152M now JC-265414K), 22 Jan 2003/01 Dec 2002*

BHM Ranjodh Singh (14466613K now JC-265415M), 06 Feb 2003/05 Dec 2002*

BHM S Manoharan (14462500K now JC-265416P), 20 Jan 2003/30 Dec 2002*

Hav Paritosh Biswas (14464795K now JC-265417X), 17 Jan 2003/01 Jan 2003*

BHM Somasekharan Nair KS (14336508K now JC-265418A), 01 Feb 2003/01 Jan 2003*

BHM Sasidharan C (14364573A now JC-265419H), 25 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Akula Krishnan (14349904Y now JC-265420X), 01 Feb 2003/01 Jan 2003*

Hav Suresh Kumar (14467942M now JC-265421A), 10 Feb 2003/01 Jan 2003*

Hav Thomas KJ (14352455H now JC-265422H), 01 Feb 2003

Hav Bhagwan Singh (15105021F now JC-265423L), 02 Feb 2003/01 Feb 2003*

RHM Gurdev Sharma (14476208F now JC-265424N), 23 Dec 2002/22 Nov 2002*

Hav Rabindra Nath Singha (14466916Y now JC-265425W), 01 Jan 2003/01 Dec 2002*

Hav Om Parkash (14472237X now JC-265426Y), 27 Dec 2002/01 Dec 2002*

RHM Brahma Nand Yadav (14390988M now JC-265427F), 03 Jan 2003/01 Jan 2003*

RHM V Sathesh (14492543N now JC-265428K), 08 Jan 2003/01 Jan 2003*

RHM Sukhbir Singh (14399559M now JC-265429M), 11 Feb 2003/01 Feb 2003*

RHM Om Kishan (14487462K now JC-265430F), 22 Feb 2003/01 Feb 2003*

Hav Hoshier Singh (14348766W now JC-265296F), 24 Nov 2002/30 Nov 2001*

Hav Rachhpal Singh (14346933H now JC-265297K), 20 Dec 2002/14 Aug 2002*

BHM Ram Kishan (14337767Y now JC-265298M), 09 Jan 2003/31 Aug 2002*

BHM Golap Chandra Nath (14461523Y now JC-265299P), 20 Dec 2002/01 Sep 2002*

Hav Chuni Lal Sharma (14343155Y now JC-265300Y), 08 Feb 2003/01 Oct 2002*

BHM Surjit Singh (14466083A now JC-265301F), 20 Oct 2002/01 Oct 2002*

Hav Shishpal Singh (14459426H now JC-265302K), 23 Dec 2002/01 Nov 2002*

Hav Baldev Singh (14335529N now JC-265303M), 01 Feb 2003/06 Nov 2002*

Hav Jarnail Singh (14352584A now JC-265304P), 22 Jan 2003/14 Nov 2002*

Hav Azaduddin (14342837W now JC-265305X), 09 Jan 2003/20 Nov 2002*

Hav Trilochan Singh (14371909X now JC-265306A), 15 Jan 2003/01 Dec 2002*

Hav Mahaveer Singh Shekhawat (14342869Y now JC-265307H), 15 Jan 2003/01 Dec 2002*

Hav Rawail Chand (14455170N now JC-265308L), 22 Jan 2003/01 Jan 2003*

BHM Ganga Ram (14339180Y now JC-265309N), 25 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Kailash Chand Sharma (14359673F now JC-265310H), 09 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Pitamber Sahoo (14340849M now JC-265311L), 13 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Prem Chand (14466159P now JC-265328Y), 06 Jan 2003/01 Aug 2002*

Hav Ram Singh (14340507Y now JC-265329F), 18 Jan 2003/01 Aug 2002*

BHM Dayanand Shivaji Rao Chavan (14474142W now JC-265330W), 17 Jan 2003/20 Oct 2002*

Hav Swaran Singh (14343019X now JC-265331Y), 22 Dec 2002/01 Nov 2002*

Hav Jaspal Singh (14469651L now JC-265332F), 11 Jan 2003/01 Nov 2002*

Hav Surinder Singh (14382485M now JC-265333K), 01 Dec 2002/01 Nov 2002*

Hav I Chinnappan (14480526F now JC-265334M), 13 Jan 2003/29 Nov 2002*

Hav Sunder Pal (14489261K now JC-265335P), 01 Feb 2003/30 Nov 2002*

RHM Ramesh Chand (14460038X now JC-265336X), 27 Jan 2003/01 Dec 2002*

BHM Laxmidhar (14464603F now JC-265337A), 17 Jan 2003/01 Dec 2002*

Hav Bhagwan Singh (14335516W now JC-265338H), 22 Jan 2003/01 Dec 2002*

Hav Madhusudan Patra (14457526P now JC-265339L), 08 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Munna Lal (14487101L now JC-265340N), 20 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Sunder Lal Yadava (14344238P now JC-265341W), 27 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Shinde Vilas Ragho (14345609Y now JC-265342Y), 01 Feb 2003/01 Jan 2003*

Hav Ram Prakash (14468713N now JC-265343F), 01 Feb 2003

Hav Radhey Shyam (14457830Y now JC-265439N), 13 Jan 2003/31 Oct 2002*

Hav Jagdish Prasad (14335720P now JC-265440L), 08 Feb 2003/01 Nov 2002*

Hav Jaya Prakash (14338126Y now JC-265441N), 08 Feb 2003/01 Nov 2002*

RHM Changi Ram (14460318L now JC-265442W), 21 Feb 2003/01 Dec 2002*

Hav Krishan Singh (14375733P now JC-265443Y), 08 Feb 2003/01 Dec 2002*

Hav Jugmandara Singh (14482424K now JC-265444F), 05 Feb 2003/01 Dec 2002*

Hav Hari Narayan Mishra (14359014M now JC-265445K), 21 Feb 2003/01 Jan 2003*

BHM Kanwar Singh (14460106A now JC-265446M), 14 Feb 2003/01 Jan 2003*

Hav Rashpal Singh Kattal (14486653M now JC-265447P), 21 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Bhushan Lal (14457562A now JC-265448X), 07 Feb 2003/01 Jan 2003*

Hav Jankar Singh (14390626L now JC-265449A), 25 Feb 2003/01 Jan 2003*

Hav Tarsem Singh (14390018K now JC-265450P), 08 Mar 2003/01 Jan 2003*

Hav Pushap Singh Rathore (14334977N now JC-265451X), 29 Jan 2003/05 Jan 2003*

Hav Amar Nath (14456444A now JC-265452A), 29 Jan 2003/11 Jan 2003*

BHM Raghuraj Sharma (14463485M now JC-265453H), 26 Feb 2003/01 Feb 2003*

BHM Ram Awatar (14467303L now JC-265454L), 01 Mar 2003

BHM Deo Nandan Singh (14470057W now JC-265455N), 28 Nov 2002/01 Apr 2002*

Hav Ramesh Chand Naghwal (14338759M now JC-265456W), 17 Feb 2003/01 Oct 2002*

RHM Tara Singh Mertia (14373188X now JC-265457Y), 30 Jan 2003/01 Oct 2002*

Hav Badshah Yadav (14343671M now JC-265458F), 22 Jan 2003/28 Oct 2002*

Hav Khandebharad Kaduba Baburao (14362611M now JC-265459K), 01 Jan 2003/01 Nov 2002*

Hav Ravinder Singh (14497873W now JC-265460Y), 15 Mar 2003/30 Nov 2002*

Hav Surat Singh (14457159N now JC-265461F), 04 Feb 2003/27 Dec 2002*

Hav Wazir Singh (14346794K now JC-265462K), 27 Jan 2003/01 Jan 2003*

RHM Sher Singh (14459678P now JC-265463M), 25 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Basana Gauda Patil (14462205F now JC-265464P), 01 Mar 2003/01 Jan 2003*

Hav Udaya Kumar T (14465661X now JC-265465X), 01 Feb 2003/01 Jan 2003*

Hav Narayan Singh (14340568W now JC-265466A), 04 Feb 2003/01 Jan 2003*

Hav Prem Parkash (14361722X now JC-265467H), 01 Feb 2003/01 Jan 2003*

Hav Visalan (14470283N now JC-265468L), 21 Feb 2003/01 Jan 2003*

Hav Vitthal Longatad (14373913Y now JC-265469N), 12 Feb 2003/01 Jan 2003*

Hav Satnam Singh (15107206F now JC-265470H), 10 Mar 2003/01 Jan 2003*

Hav Jitender Kumar (14344977F now JC-265255X), 10 Dec 2002/01 Aug 2002*

BHM K Pandurangan (14355333I now JC-265256A), 09 Dec 2002/01 Sep 2002*

BHM Sant Vijay Yadav (14485893X now JC-265257H), 27 Dec 2002/01 Oct 2002*

BHM Ved Prakash (14343232F now JC-265258L), 01 Jan 2003/01 Oct 2002*

Hav Hari Prasad (14345901W now JC-265259N), 08 Jan 2003/02 Oct 2002*

Hav Rajnath Singh (14340027P now JC-265260H), 26 Nov 2002/02 Oct 2002*

Hav Shri Ram (14475091H now JC-265261L), 13 Jan 2003/02 Oct 2002*

BHM Daya Ram Yadav (14459278H now JC-265262N), 30 Nov 2002/16 Oct 2002*

Hav Sukhjinder Singh (14358579L now JC-265263W), 28 Dec 2002/18 Oct 2002*

Hav Banke Lal (14338656N now JC-265264Y), 21 Dec 2002/26 Oct 2002*

Hav Ravi Kumar (14457687X now JC-265265F), 10 Jan 2003/29 Oct 2002*

RHM Khitish Chandra Pradhan (14346119X now JC-265266K), 12 Dec 2002/16 Nov 2002*

BHM Raj Kumar (14455869M now JC-265267M), 04 Jan 2003/01 Dec 2002*

BHM Kadam Mahadeo (14455803W now JC-265268P), 24 Dec 2002/01 Dec 2002*

Hav Ram Nath (14337337P now JC-265269X), 02 Jan 2003/12 Dec 2002*

Hav Sukhminder Singh (14458870M now JC-265270M), 01 Jan 2003

Hav Kehar Singh (15102160A now JC-265271P), 16 Dec 2002/01 Aug 2002*

Hav Ajit Singh (14464553F now JC-265272X), 17 Dec 2002/01 Sep 2002*

Hav Harbhajan Singh (14370734N now JC-265273A), 25 Dec 2002/11 Sep 2002*

Hav Satpal Verma (14340609P now JC-265274H), 09 Dec 2002/01 Nov 2002*

Hav Satbir Singh (14466043Y now JC-265275L), 31 Dec 2002/01 Nov 2002*

Hav Gurcharn Singh (14475888Y now JC-265276N), 23 Dec 2002/01 Nov 2002*

Hav Chand Ram (14357259K now JC-265277W), 01 Nov 2002

Hav Rajappan CR (14364720X now JC-265278Y), 20 Jan 2003/01 Nov 2002*

BHM Dhyan Pal Singh (14460195K now JC-265279F), 15 Jan 2003/01 Dec 2002*

BHM Jagdish Singh (14453027H now JC-265280W), 06 Jan 2003/01 Dec 2002*

Hav Jaswant Singh Champawat (15104136H now JC-265281Y), 01 Feb 2003/01 Dec 2002*

Hav Raj Kumar (14338173W now JC-265282F), 06 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Amarjit Singh (14340406L now JC-265283K), 27 Jan 2003/01 Jan 2003*

RHM Santosh Kumar Chaturvedi (14477320Y now JC-265284M), 01 Jan 2003

Hav Kamal Singh (14455995Y now JC-265285P), 11 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Ummed Singh Sisodiya (14481125Y now JC-265286X), 01 Feb 2003

*(Granted seniority wef)

To be Naib Subedar (Clerk GD/SKsT)

Hav (Clk) Baldev Chand Sharma (No. 14337318K now JC-265384X), 25 Jan 2003/25 Nov 2001*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 25 Nov 2001 without effect on pay & allces)

Hav (Clk) Ranjeet Singh (No. 14339121M now JC-265388N), 20 Dec 2002/01 Dec 2002*

Hav (Clk) Suresh Kumar Verma (No. 14362154K now JC-265379M), 03 Jan 2003/01 Dec 2002*

Hav (Clk) Amrik Singh (No. 14476847F now JC-265385A), 04 Jan 2003/01 Dec 2002*

Hav (Clk) Arvind Kumar Singh (No. 14340135Y now JC-265375W), 01 Jan 2003/01 Dec 2002*

Hav (Clk) Giridhar Dwivedi (No. 14475703M now JC-265386H), 28 Dec 2002/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Clk) Jai Bir (No. 14363124Y now JC-265381K), 14 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav (Clk) Rama Chandran Nair VP (No. 14478497Y now JC-265383F), 06 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav (Clk) Sree Kumar S (No. 14478498F now JC-265376Y), 01 Jan 2003

Hav (SKT) Babu Lal Yadav (No. 14463454M now JC-265382M), 06 Jan 2003/01 Jan 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2003 without effect on pay & allces)

Hav (SKT) Shree Krishan (No. 14337607Y now JC-265390L), 25 Jan 2003/01 Jan 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2003 without effect on pay & allces)

Hav (Clk) Chanchal Singh Nagarkoti (No. 14365994P now JC-265377F), 03 Feb 2003/01 Feb 2003*

Hav (Clk) Jeet Bahadur Tiwari (No. 14480241P now JC-265380F), 01 Feb 2003

Hav (Clk) Lal Nawal Kishore (No. 14480263N now JC-265378K), 01 Feb 2003

Hav (Clk) Babu S (No. 14480380Y now JC-265387L), 01 Feb 2003

Hav (Clk) Ramesh Kumar (No. 14480472L now JC-265391N), 04 Feb 2003/01 Feb 2003*

Hav (Clk) Pravakar Satapathy (No. 14480784F now JC-265389W), 01 Feb 2003

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2003 without effect on pay & allces)

To be Naib Sub

Hav Blagur Singh (14466202L now JC-265344W), 29 Jan 2003/01 Oct 2002*

Hav Rajbir (14339974K now JC-265345Y), 10 Dec 2002/01 Nov 2002*

Hav Ram Bahadur (14356091W now JC-265346F), 10 Dec 2002/01 Nov 2002*

Hav Ram Singh (14457499W now JC-265347K), 26 Dec 2002/01 Nov 2002*

Hav Daljit Singh (14463926X now JC-265348M), 17 Jan 2003/01 Nov 2002*

Hav Vetale Sambhaji Ramchandra (14464739L now JC-265349P), 20 Jan 2003/09 Nov 2002*

Hav Suresh Singh (14364246P now JC-265350K), 30 Dec 2002/20 Nov 2002*

RHM Paramjit Singh (14470630F now JC-265351M), 31 Dec 2002/01 Dec 2002*

BHM Sadanand Ganpat Chavan (14468528A now JC-265352P), 18 Jan 2003/01 Dec 2002*

RHM Sampat Kumar Tripathi (14346885N now JC-265353X), 01 Jan 2003

Hav Beant Singh (14338947N now JC-265354A), 17 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Bajrang Singh (14458766Y now JC-265355H), 02 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Chhaju Ram (14466196H now JC-265356L), 23 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Anjan Kumar Sharma (14462965K now JC-265357N), 03 Feb 2003/01 Jan 2003*

Hav Paramjit Singh (14347453L now JC-265358W), 01 Feb 2003

Hav MD Fajal Ansari (15135000A now JC-265359Y), 11 Jan 2003/21 May 2002*

BHM Chamkaur Singh (14472079N now JC-265360N), 19 Jan 2003/01 Aug 2002*

Hav Rajinder Singh (14463022X now JC-265316W), 23 Nov 2002/31 Aug 2002*

Hav Virender Singh (14467028W now JC-265362Y), 16 Jan 2003/01 Oct 2002*

Hav Brij Lal Meena (14463211H now JC-265363M), 08 Feb 2003/01 Nov 2002*

Hav Udey Ram (14457298X now JC-265364K), 07 Dec 2002/01 Nov 2002*

Hav Hans Ram Yadav (14334917Y now JC-265365M), 07 Dec 2002/01 Nov 2002*

Hav Bishan Singh Bangyal (14340320M now JC-265366P), 08 Feb 2002/01 Nov 2002*

Hav Ram Lubhaya (14457955W now JC-265367X), 26 Jan 2003/01 Nov 2002*

Hav Ramesh Chand Chohan (14346964H now JC-265368A), 11 Dec 2002/01 Nov 2002*

BHM Mahendra Singh (14477820W now JC-265369H), 26 Dec 2002/02 Nov 2002*

BHM Sawant Singh (14463188P now JC-265370X), 25 Jan 2003/01 Jan 2003*

BHM Dalip Singh (14454545P now JC-265371A), 25 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Vinod Kumar Suggal (14461796F now JC-265372H), 10 Feb 2003/01 Jan 2003*

BHM R Bose (14347506Y now JC-265373L), 07 Feb 2003/01 Jan 2003*

Hav N Munirathinam (14459645K now JC-265374N), 11 Jan 2003/01 Jan 2003*

*(Gtd seniority wef)

To be Naib Subedar (Clerk GD/SKsT)

Hav (Clk) Nil Kamal Biswas (No. 14360320N now JC-265224X), 15 Nov 2002/17 Oct 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 17 Oct 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Clk) Kailash Chandra (No. 14474997Y now JC-265225A), 30 Dec 2002/01 Aug 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Clk) Ram Naresh (No. 14342688N now JC-265141M), 27 Dec 2002/22 Nov 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 12 Nov 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Clk) Rajendra Kurup TC (No. 14340468L now JC-265226H), 02 Jan 2003/22 Nov 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 12 Nov 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) T Sekar (No. 14475701F now JC-265227L),
24 Dec 2002/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) Jakkampudi SRK Murali Mohan (No.
14339875F now JC-265289L), 30 Dec 2002/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) Sachidanand Singh (No. 14340133N now JC-
265228N), 30 Dec 2002/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) Bashant Kumar Dubey (No. 14343659L now
JC-265229W), 06 Jan 2003/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) Suresh Chandra Mishra (No. 14360352W now
JC-265230L), 01 Jan 2003/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) Karunakaran AK (No. 14360357P now JC-
265231N), 30 Dec 2002/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) Lal Singh (No. 14361877M now JC-
265232W), 21 Dec 2002/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) Avadh Narayan Tripathi (No. 14461739A now
JC-265233Y), 04 Jan 2003/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) Sreenivasan V (No. 14473943L now JC-
265234F), 30 Dec 2002/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) Rakesh Kumar Mishra (No. 14362079L now
JC-265235K), 28 Dec 2002/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) Badri Nath Tiwari (No. 14475669X now JC-
265236M), 09 Jan 2003/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) R Gajendran (No. 14356491H now JC-
265237P), 26 Dec 2002/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) Prabhakar Gupta (No. 14475667M now JC-
265238X), 27 Dec 2002/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) Hari Babu (No. 14362167F now JC-265239A),
31 Dec 2002/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) Gyanendra Kumar Dash (No. 14476856H now
JC-265295Y), 03 Jan 2003/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) Vinendra Kumar Shukla (No. 14343044A now
JC-265240P), 01 Jan 2003/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) Chander Bhushan Verma (No. 14341392H
now JC-265288H), 10 Jan 2003/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) Surendra Singh (No. 14342472M now JC-
265241X), 05 Jan 2003/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) Milap Singh (No. 14466167N now JC-
265287A), 03 Dec 2002/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) Mohinder Singh (No. 14339714Y now JC-
265242A), 06 Jan 2003/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) Jiwan Chandra Pant (No. 14468229F now
JC-265243H), 20 Jan 2003/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) Uppati Kaupadanam (No. 14356637L now
JC-265292L), 08 Jan 2003/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Dec 2002 without effect on pay & allces)

Hav (Cik) Shaik Mahboob Basha (No. 14333974N now
JC-265244L), 06 Jan 2003/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01
Jan 2003 without effect on pay & allces)

Hav (Clk) Dilbag Singh (No. 14362186M now JC-265291H), 08 Jan 2003/01 Jan 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2003 without effect on pay & allces).

Hav (Clk) Ashok Kumar (No. 14476871X now JC-265245N), 10 Jan 2003/01 Jan 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2003 without effect on pay & allces)

Hav (Clk) Pahlad Singh (No. 14362189A now JC-265246W), 09 Jan 2003/01 Jan 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2003 without effect on pay & allces)

Hav (Clk) Amar Nath (No. 14362190P now JC-265247Y), 07 Jan 2003/01 Jan 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2003 without effect on pay & allces)

Hav (Clk) Mukunda Kumar Nayak (No. 14362198F now JC-265248F), 07 Jan 2003/01 Jan 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2003 without effect on pay & allces)

Hav (Clk) Sukha Ram (No. 14363129X now JC-265249K), 08 Jan 2003/01 Jan 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2003 without effect on pay & allces)

Hav (Clk) Ranbir Singh (No. 14363989L now JC-265250Y), 08 Jan 2003/01 Jan 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2003 without effect on pay & allces)

Hav (Clk) Khem Singh Rawat (No. 14478690L now JC-265251F), 06 Jan 2003/01 Jan 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2003 without effect on pay & allces)

Hav (Clk) Subhash Chander (No. 14478694F now JC-265252K), 06 Jan 2003/01 Jan 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2003 without effect on pay & allces)

Hav (SKT) Raja Ram Yadav (No. 14344505L now JC-265253M), 06 Jan 2003/01 Jan 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2003 without effect on pay & allces)

Hav (SKT) Gagan Chandra Das (No. 14344987L now JC-265290A), 24 Jan 2003/01 Jan 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2003 without effect on pay & allces)

Hav (Clk) Dharamvir Singh (No. 14366758A now JC-265294W), 01 Feb 2003

Hav (Clk) Ram Nath Yadav (No. 14367100M now JC-265254P), 01 Feb 2003

Hav (Clk) Dharma Nath Sah (No. 14480772M now JC-265293N), 01 Feb 2003

To be Substantive Subedar Major (RT)

Sub Sukhwant Singh Gill (JC-82357A), 27 Oct 2002/01 Oct 2002*

Sub Beni Prasad Badoni Sharma (JC-85887A), 28 Oct 2002/01 Oct 2002*

Sub Suresh Tiwari (JC-86004X), 28 Oct 2002/01 Oct 2002*

To be Substantive Subedar (RT)

Nb Sub Manni Lal (JC-255001M), 01 Nov 2002

Nb Sub Ram Naresh Tiwari (JC-255005H), 27 Dec 2002/01 Nov 2002*

Nb Sub Iqbal Singh Raina (JC-255422P), 18 Nov 2002/01 Nov 2002*

Nb Sub Surendra Narayan Pandey (JC-255002P), 16 Nov 2002/01 Nov 2002*

Nb Sub Piara Singh (JC-255003X), 01 Dec 2002/01 Nov 2002*

Nb Sub Mani Nath Mishra (JC-255006L), 22 Nov 2002/01 Nov 2002*

Nb Sub Suresh Kumar Tiwari (JC-255004A), 21 Nov 2002/01 Nov 2002*

Nb Sub Pushkar Datt (JC-255048X), 09 Dec 2002/01 Nov 2002*

Nb Sub Ram Prappan Pandey (JC-255049A), 23 Nov 2002/01 Nov 2002*

Nb Sub Sukhdev Raj Singh (JC-255423X), 22 Nov 2002/01 Nov 2002*

Nb Sub Murlidhar Mishra (JC-255086N), 18 Nov 2002/01 Nov 2002*

Nb Sub Ashok Kumar Pandey (JC-255050P), 23 Nov 2002/01 Nov 2002*

Nb Sub Ram Bal Dwivedi (JC-255007N), 23 Dec 2002/01 Nov 2002*

*(Gtd seniority wef)

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub P Babu (JC-260577N), 02 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Dalip Chand (JC-260789Y), 15 May 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Kirpal Singh (JC-260706H), 01 Apr 2002

Nb Sub Gour Babu Singha (JC-260622P), 01 Apr 2002

Nb Sub Sheonath Singh (JC-261126A), 01 Apr 2002

Nb Sub Shub Karan (JC-261215Y), 10 May 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Harbhajan Singh (JC-260867L), 08 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Dev Raj (JC-261159L), 25 June 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Joginder Singh (JC-260799H), 30 May 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Bhag Singh (JC-261109A), 01 Apr 2002

Nb Sub Nanak Chand (JC-260813K), 13 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Uttam Singh (JC-260721X), 01 Apr 2002

Nb Sub Mohar Singh (JC-260711N), 12 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Kali Prasad Barman (JC-260935N), 09 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Swapan Kumar Das (JC-260727Y), 18 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Balwant Singh (JC-260957M), 13 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Mukhram Prasad (JC-262090Y), 09 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Jagdish Ram (JC-261289N), 15 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Shiv Charan Singh (JC-261112A), 14 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Ram Niwas (JC-261137M), 22 Jun 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Yadav Tukaram Krishna (JC-261269N), 09 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Roy C P (JC-260948L), 09 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Hans Raj (JC-261316M), 03 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Sukhpal Meena (JC-261625Y), 31 May 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Shankar Singh (JC-261519W), 12 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Dudekula Bhasha (JC-261709H), 13 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Bhoop Singh Yadav (JC-261586F), 05 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Mridul Kumar Mishra (JC-262212Y), 05 May 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Kuman Singh (JC-261761L), 20 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Prem Chand (JC-261745N), 20 May 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Rup Ram (JC-262080P), 09 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Chhote Lal Pal (JC-262329W), 14 Jul 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Laxman Singh (JC-262014M), 12 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Alexander Mathew (JC-261861W), 01 Apr 2002

Nb Sub Shamibhu Datt (JC-262258A), 17 June 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Rajender Singh (JC-262153W), 11 May 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Surajbhan Rana (JC-262469H), 02 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Bihri Singh Sharma (JC-262516P), 01 Apr 2002

Nb Sub A M Hari (JC-262349K), 13 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Raghunath Singh Tomar (JC-262458N), 01 Apr 2002

Nb Sub Raj Narayan Ojha (JC-262355X), 01 Apr 2002

Nb Sub Ramesh Kumar (JC-262509Y), 06 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Subhash Chandra Ghosh (JC-262404P), 01 Apr 2002

Nb Sub MD Moktar Ali (JC-262624Y), 03 Apr 2002/01 Apr 2002*

Nb Sub Hajari Singh (JC-260767A), 15 Apr 2002/13 Apr 2002*

Nb Sub Ramesh Singh (JC-257836A), 28 Apr 2002/14 Apr 2002*

Nb Sub Harbhej Singh (JC-260597F), 03 Jun 2002/14 Apr 2002*

Nb Sub Nagappa (JC-259539L), 03 Jul 2002/21 Apr 2002*

*(Granted ante date seniority)

To be Substantive Subedar Major (Cik GD)

Subedar Ramachandran K (JC-211914N), 01 Jan 2003

Subedar Hem Raj Rana (JC-211904K), 14 Feb 2003/01 Feb 2003*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2003)

To be Substantive Subedar (Cik GD/SKsT)

Nb Sub Raj Kumar Rao (JC-259807K), 09 Dec 2002/17 Oct 2002*

*(Gtd seniority wef 17 Oct 2002)

Nb Sub Balwinder Singh (JC-259941P), 01 Dec 2002

Nb Sub Jagat Singh (JC-259943A), 01 Dec 2002

Nb Sub Chackochan VG (JC-260129F), 02 Dec 2002/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2002)

Nb Sub Prakash Chandra Joshi (JC-260355Y), 01 Dec 2002

Nb Sub Karan Singh Mehla (JC-259975H), 09 Dec 2002/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2002)

Nb Sub Amar singh Rawat (JC-260347A), 04 Dec 2002/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2002)

Nb Sub Purab Dass (JC-260346A), 10 Jan 2003/01 Dec 2003*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2003)

Nb Sub Bhup Singh (JC-260365H), 06 Jan 2003/01 Jan 2003*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2003)

Nb Sub Kamlesh Kumar Rana (JC-260451N), 01 Jan 2003

Nb Sub Jawal Singh (JC-260453Y), 01 Jan 2003

Nb Sub Ranvir Singh (JC-260455K), 06 Jan 2003/01 Jan 2003*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2003)

Nb Sub Baljinder Singh (JC-260456M), 06 Jan 2003/01 Jan 2003*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2003)

Nb Sub Kamlesh Chandra Shukla (JC-260457P), 01 Jan 2003

Nb Sub Jasvir Singh (JC-260461X), 30 Jan 2003/01 Jan 2003*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2003)

Nb Sub Manoranjan Daimary (JC-260367N), 10 Jan 2003/01 Jan 2003*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2003)

Nb Sub Kesh Narayan (JC-260359P), 25 Jan 2003/01 Dec 2002*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2002)

Nb Sub Ramphal Yadav (JC-260593L), 01 Feb 2003

Nb Sub Satya Bir (JC-260594N), 01 Feb 2003

Nb Sub Sunil Kumar Jani (JC-260649M), 01 Feb 2003

Nb Sub Cour Chand Sinha (JC-260650F), 01 Feb 2003

Nb Sub Pavithran EK (JC-260660L), 01 Feb 2003

Nb Sub Ram Phal Singh (JC-260654X), 01 Feb 2003

Nb Sub Vijaya Kumaran Pillai BS (JC-260655A), 01 Feb 2003

Nb Sub Varanasi Venkata Ramana (JC-260656H), 01 Feb 2003

To be Substantive Subedar Major (Cik GD)

Sub Bhagat Ram (JC-213389F), 07 Mar 2003/01 Mar 2003*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2003)

To be Substantive Subedar (Cik GD/SKsT)

Nb Sub Babu Singh Tomar (JC-260366L), 15 Jan 2003/01 Jan 2003*

Nb Sub Ram Mehar (JC-260592H), 11 Jan 2003/01 Jan 2003*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2003)

Nb Sub Harendra Singh Bisht (JC-261390N), 03 Mar 2003/01 Mar 2003*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2003)

Nb Sub Basant Lal (JC-260668X), 01 Mar 2003

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Bhosale Nanasaheb Shamrao (JC-261912Y), 05 Jan 2002/01 Jan 2002*

Nb Sub Bhurna Bahadur Gurung (JC-262037N), 01 Mar 2002

Nb Sub Ram Lal Singh (JC-259503M), 01 Jun 2002

Nb Sub Ved Narain Bhatt (JC-260903L), 22 Jun 2002/01 Jun 2002*

Nb Sub Surinder Singh (JC-261128L), 01 Jun 2002

Nb Sub Vijay Kumar (JC-261069K), 19 Oct 2002/01 Jun 2002*

Nb Sub P Gandhi Rajan (JC-260814M), 01 Jun 2002

Nb Sub Kailash Chandra Yadav (JC-261286A), 08 Jun 2002/01 Jun 2002*

Nb Sub Pradeep Kumar S (JC-261303P), 08 Jul 2002/01 Jul 2002*

Nb Sub Kana Ram (JC-261710X), 10 Sep 2002/23 Jul 2002*

Nb Sub Devi Singh Rathore (JC-261114L), 13 Sep 2002/01 Aug 2002*

Nb Sub Jagdish Singh (JC-257964X), 14 Sep 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub Harbans Lal (JC-258771K), 02 Oct 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub Balbir Singh (JC-258885P), 03 Sep 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub Akhilesh Kumar (JC-258396K), 01 Sep 2002

Nb Sub Sidhartha Ray Singh Warthe (JC-260292F), 08 Nov 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub Lekh Raj (JC-259917Y), 01 Sep 2002

Nb Sub Naresh Kumar Dagar (JC-259581K), 27 Sep 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub Chet Singh (JC-259903Y), 24 Sep 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub Bali Ram Prasad (JC-260116K), 01 Nov 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub Shyam Sunder (JC-260304L), 24 Sep 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub Jaswant Singh (JC-260010X), 08 Sep 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub Bhoopender Prasad Singh (JC-260230F), 20 Sep 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub Kolhe Gorakhnath Jagannath (JC-260416L), 01 Sep 2002*

Nb Sub Mahander Singh (JC-260579Y), 10 Nov 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub Rajinder Prasad (JC-260702M), 03 Oct 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub Harikesh Bahadur Singh (JC-260839P), 01 Sep 2002*

Nb Sub Suresh Bahadur Singh (JC-260806N), 01 Oct 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub KX George (JC-260623X), 07 Sep 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub Ishwar Singh (JC-260938F), 05 Sep 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub Tilak Raj (JC-261149F), 04 Nov 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub K Rajendran (JC-261225H), 11 Sep 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub Dalip Singh (JC-261374W), 17 Sep 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub John Skaria (JC-261187X), 01 Sep 2002

Nb Sub Ravi Nathan R (JC-261171M), 22 Oct 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub Satya Narain (JC-261619F), 01 Sep 2002

Nb Sub Sant Kumar (JC-261427K), 12 Oct 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub Taran Singh (JC-260604Y), 11 Oct 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub GE Longovan (JC-262033X), 23 Oct 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub Rakesh Kumar (JC-262489W), 01 Sep 2002

Nb Sub Payuluri Sivarama Krishnaiah (JC-263371F), 01 Oct 2002/01 Sep 2002*

Nb Sub Bhattan Chand (JC-261381M), 16 Oct 2002/26 Sep 2002*

*(Granted ante date seniority)

To be Nb Sub

BHM Daya Ram Singh (14458452X now JC-265392W), 25 Jan 2003/01 Nov 2002*

Hav Daulat Ram (14484407H now JC-265393Y), 29 Jan 2003/03 Nov 2002*

BHM Patle Tirthraj (14376174H now JC-265394F), 02 Feb 2003/22 Nov 2002*

Hav Shinde Khandu Devram (14359410H now JC-265395K), 05 Feb 2003/22 Nov 2002*

Hav Mehnga Singh (14467079K now JC-265396M), 17 Jan 2003/01 Dec 2002*

Hav Nunna Veera Prasad (14468954H now JC-265397P), 24 Jan 2003/01 Dec 2002*

Hav Balkrn Singh (14475886N now JC-265398X), 24 Jan 2003/01 Dec 2002*

Hav Bhagwan Prasad (14389622H now JC-265399A), 15 Jan 2003/01 Dec 2002*

Hav Shiv Prasad (14466288P now JC-265400K), 01 Jan 2003

Hav Bani Singh (14473199Y now JC-265401M), 01 Jan 2003

Hav Surendra Singh Yadav (14356449K now JC-265402P), 25 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Vijay Kumar (14459596M now JC-265403X), 11 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Malkiat Singh (14374233L now JC-265404A), 11 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Arokya Samy S (14472638M now JC-265405H), 12 Jan 2003/01 Jan 2003*

Hav Gurnam Singh (14359115A now JC-265406L), 05 Feb 2003/01 Jan 2003*

Hav Vimlesh Kumar (14481610N now JC-265407N), 01 Feb 2003

*(Gtd seniority wef)

CORPS OF AD ARTILLERY

To be Nb Sub

BHM Jai Singh (14349359A now JC-298637F), 15 Feb 2003/01 Jan 2002*

BHM Kamta Singh (14358437N now JC-298638K), 31 Mar 2003/28 Nov 2002*

BHM Satendra Narayan Singh (14351690M now JC-298639M), 25 Mar 2003/01 Dec 2002*

BHM Lajrus Barla (14349345A now JC-298640F), 03 Mar 2003/01 Feb 2003*

BHM Uma Shankar (14355314W now JC-298641K), 12 Mar 2003/01 Feb 2003*

Hav K Mahendran (14350043A now JC-298642M), 17 Mar 2003/01 Feb 2002*

BHM Lal Singh (14373077A now JC-298643P), 01 Apr 2003/20 Feb 2003*

Hav Ratheesh Kumar P (14366830L now JC-298644X), 26 Mar 2003/01 Mar 2003*

BHM Babu Lal (14341186Y now JC-298645A), 01 Apr 2003

Hav Rameshwar Singh (14468305H now JC-298646H), 01 Apr 2003

BHM C Sundaresan (14361212W now JC-298647L), 01 Apr 2003

BHM Ravindran K (14382991X now JC-298648N), 01 Apr 2003

Hav Suresh Babu Sharma (14473102H now JC-298649W), 12 Apr 2003/01 Apr 2003*

Hav Sultan Singh (14332684K now JC-298650L), 19 Apr 2003/06 Apr 2003*

Hav Siddappa A (14341524L now JC-298651N), 22 Apr 2003/01 Apr 2003*

Hav Janardan Singh (14372208N now JC-298652W), 01 Jan 2003

Hav Jeebono Kumar Jenna (14335754H now JC-298653Y), 11 Apr 2003/01 Apr 2003*

Hav P Veera Sekaran (14343975K now JC-298654F), 01 May 2003

Hav Karan Pal Chauhan (14377947K now JC-298655K), 01 May 2003

Hav Sukhdev (14482268L now JC-298656M), 01 Apr 2003

Hav Sardar Singh (14375933L now JC-298657P), 01 May 2003

BHM Hira Lal Bhawaria (14366962Y now JC-298658X), 21 Mar 2003/30 Nov 2002*

Hav Chawan Uttam Sadashiv (14366641F now JC-298659A), 02 Apr 2003/30 Nov 2002*

Hav Jai Kishan (14374796L now JC-298660P), 02 Apr 2003/30 Nov 2002*

BHM Udaivir Singh (14387790H now JC-298661X), 29 Mar 2003/01 Dec 2002*

BHM Jadhav Tanaji Chimanrao (14365307N now JC-298662A), 10 Apr 2003/01 Feb 2003*

Hav Mishal Soyaroba Kashinath (14484946Y now JC-298663H), 30 Apr 2003/28 Feb 2003*

Hav Deshmukh Diliprao Prataprao (14335408H now JC-298664L), 30 Apr 2003/28 Feb 2003*

Hav Lal Mani (14367707Y now JC-298665N), 10 Mar 2003/01 Mar 2003*

BHM R Dorai Raj (14358515A now JC-298666W), 26 Mar 2003/01 Mar 2003*

BHM Varkey PU (14342427A now JC-298667Y), 01 Apr 2003

Hav Ashok Kumar Roy (14341847N now JC-298668F), 30 Apr 2003/01 Apr 2003*

Hav Prajapati Ramesh Kumar Jivrajibhai (14381005L now JC-298669K), 01 May 2003/03 Apr 2003*

Hav Shinde Kailash Sakharan (14350378X now JC-298670Y), 28 Apr 2003/14 Apr 2003*

Hav Jaspal Singh (14381571L now JC-298671F), 01 May 2003

*(Gtd ante-date seniority wef)

RAJENDRA CHATURVEDI
Under Secy.

No. 477, dated 18th July 03.—The President is pleased to make following promotions/appointments:—

1. Shri PP Abraham, SSS of SRID, Mumbai to be Offg. Stores Officer at SQAE(GS), Mumbai on probation for a period of 02 years wef 17 Apr 03 (F/N).

2. Smt. Oruganti Phani, Assistant of Planning Commission, Yojana Bhavan, New Delhi to be Administrative Officer at CQA(S), Secunderabad for a period of 03 years wef 03 Mar 03 (F/N), on deputation basis.

3. Shri S.K. Sahoo, Assistant of O/o the Assistant Director, Subsidiary Intelligence Bureau (MHA), Aizawl (Mizoram) to be Senior Administrative Officer Grade-II at SQAE(A), Cossipore, Kolkata, on deputation basis wef 28 Apr 03 (F/N). Period of his deputation including period of deputation in the post of Administrative Officer in the DGQA organisation at DIQA, Bangalore wef 30 Dec 02 (F/N), which was held by him immediately preceding this appointment, would be for a period of 03 years upto 29 Dec 05 (A/N).

4. Shri SK Gupta, Office Superintendent of Deptt. of Explosives, Seminary Hills, Nagpur to be Senior Administrative Officer, Grade-II at SQAE(GS), Kolkata for a period of 03 years wef 27 May 03 (F/N), on deputation basis.

S. N. TRIPATHI
Dy. Secy.

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 478, dated 21st July 03.—The following promotion is made :—

Additional Chief Engineers Shri Ajay Singh, Dte of CWE&E, Delhi and Shri Venkateswarlu D, CCE R&D(S) promoted as Chief Construction Engineers with effect from 07 Apr 2003 and 21 Apr 2003 respectively in Dte of CW&E, Delhi in the pay scale of Rs. 16400-450-20000.

Shri M N Salim, Senior Accounts Officer Gde I of NSTL, Visakhapatnam, to be Chief Accounts Officer in GTRE, Bangalore with effect from 28 Apr 2003 (F/N) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500.

Shri S. Krishnamurthy, Stores Officer (SO) of ADE, Bangalore, to be Senior Stores Officer Grade II (SSO II) in the same establishment with effect from 07 Mar 2003 (F/N) in the pay scale of Rs. 8000-275-13500.

J. K. KHADWAL
Joint Director (Pers)

AIR FORCE

No. 479, dated 22nd July 03.—The President is pleased to make the following Substantive promotions:—

INDIAN AIR FORCE

AE (M) BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

Saini GS (25467), B. Senthilvel (25449), Vijay Panwar (25441), G Kumar (25455), Pandit A (25439), P Radhakrishnan (25431), CV Hari Krishnan (25435), Mukesh Agnihotri (25424), G Ajit Kumar (25428), Sharma S (25436), Pramod T Nair (25448), Gopala Krishna Sreekanth (25472), T Sangeeth (25465), Nirmal Jeet Singh Bajwa (25456), Hemant Kumar Mishra (25443), Rohit Kr Singh (25434), Verma P (25466), Bibhuprasad Mishra (25437), Randhir Singh Rana (25460), Ashish Tandon (25469), Deepak Bhargava (25471), Rahul Ramchandra Despande (25470), N Chetan Singh (25450), Ashish Anand Prayagi (25425), D R Singh (25451), Satish Kumar Saini (25459), Amitava Banik (25454), Kashyap AD (25464) —27 December 2001

AE (L) BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

Bivash Roy (25493), B N Lute (25816), Himanshu Agarwal (25500), Prashant Srivastava (25481), Desai PP

(25479), Dinesh Kumar Mishra (25478), CV Arun (25484), Manpreet Singh Gill (25513), Pradeep Kumar Bhardwaj (25487), Sinha Diptanshu (25502), Sudhanshu Saini (25499), Mandeep Singh (25477), Subodh Kumar Mudhol (25507), Dwivedi A (25483), S Karthikeyan (25510), Ajay Yadav (25506)—27 December 2001

AE(M) BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

Basavraj Kallurmam (25462), Kundu Ayan (25461), MP Balachandrar (25444) with effect from 27 Dec 01, Singh P (25429) with effect from 07 Jan 02 and M Maharajan (25426), Vinay Singh Chauhan (25423), Birju Kotel Vilas (25453) and Dharmendar Kumar Dixit (25458) with effect from 15 July 02.

INDIAN AIR FORCE

AE (L) BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

Sanketi SR (25485), Sumeet Soni (25491), BR Joshi (25488), Yadav P (25496), Arinjay Jain (25475), Ashok Pant (25508), Nishith Kumar Verma (25511), Harinder Singh (25501), C Gunasekaran (25494) with effect from 27 Dec 01; Vinod Kumar Agarwal (25512), Rohit Shori (25504), P Kashyap (25482), Surender Singh Rao (25497) with effect from 07 Jan 02 and Jayant Kumar (25486) with effect from 15 July 02.

AE(M) BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

V Naga Linga Reddy (25468), Nitin Mayal Singh Bisht (25447), N Jagannath Reddy (25445), Jamgaonkar US (25433), Bharat Sharma (25432), Sanjay Hosahalli Ramamury (25457), Ghorpade SC (25440), Sinha AK (25446), Deepak Kumar Singh (25463), Dular A (25452), Bisheswar Choudhury (25430)—07 January 2002

AE (L) BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

Adivi Prashant (25489), Gaurav Saxena (25474), Rajender Singh Pawar (25498), N Sunil Kumar Singh (25490), Akshay Suranglikar (25514)—07 January 2002

S. V. KUTE
Sqn Ldr
ADPO 3 (D)